
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

UPSSSC

सामान्य जानकारी
अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर्स

प्रधान सम्पादक

आनन्द महाजन

लेखन एवं संकलन


अम्बुज कुमार, सूर्य प्रकाश तिवारी

कम्प्यूटर ग्राफिक्स

बालकृष्ण, चरन सिंह

संपादकीय कार्यालय

12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002

 9415650134

Email : yctap12@gmail.com

website : www.yctbooks.com/www.yctfastbook.com/www.yctbooksprime.com

©All Right Reserved with Publisher

प्रकाशन घोषणा

सम्पादक एवं प्रकाशक आनन्द कुमार महाजन ने E:Book by APP YCT BOOKS, से मुद्रित करवाकर, वाई.सी.टी. पब्लिकेशन्स प्रा. लि., 12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002 के लिए प्रकाशित किया।

इस पुस्तक को प्रकाशित करने में सम्पादक एवं प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है
फिर भी किसी त्रुटि के लिए आपका सुझाव और सहयोग सादर अपेक्षित है।

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा।

विषय सूची

■ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) 2023 की परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नों का अध्यायवार संकलन	V-6
■ इतिहास (History)	7-63
A. प्राचीन इतिहास (Ancient History)	7
B. मध्य कालीन इतिहास (Medieval History)	19
C. आधुनिक इतिहास (Modern History)	29
D. विश्व का इतिहास (World History)	63
■ भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था (Indian Constitution and Polity)	64-100
■ भूगोल (Geography)	101-151
A. विश्व का भूगोल (World Geography)	101
B. भारत का भूगोल (Indian Geography)	120
■ अर्थशास्त्र (Economics)	152-193
■ सामान्य विज्ञान (General Science)	194-304
A. भौतिक विज्ञान (Physics)	194
B. रसायन विज्ञान (Chemistry)	213
C. जीव विज्ञान (Biology)	231
D. कम्प्यूटर (Computer)	274
■ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment and Ecology)	305-312
■ परम्परागत सामान्य ज्ञान (Traditional General Knowledge)	313-336
■ उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान (Uttar Pradesh General Knowledge)	337-368

UPSSSC पूर्व परीक्षा प्रश्न-पत्रों का विश्लेषण चार्ट (UPSSSC Previous Exam Papers Analysis Chart)

परीक्षा	परीक्षा तिथि/पाली	कुल प्रश्न
प्रारंभिक अर्हता, परीक्षा (PET)-2023	29-10-2023/Shift-I & II	100
प्रारंभिक अर्हता, परीक्षा (PET)-2023	28-10-2023/Shift-I & II	100
कनिष्ठ सहायक (मुख्य) परीक्षा, 2022	27-08-2023	20
सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक(सामान्य चयन) पुनर्परीक्षा, 2018	26-06-2023/Shift-I & II	100
सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक(सामान्य चयन) पुनर्परीक्षा, 2018	27-06-2023/Shift-I & II	100
सम्मिलित तकनीकी सेवा परीक्षा 2016	26-03-2023	20
प्रारंभिक अर्हता, परीक्षा (PET)-2022	16-10-2022/Shift-I	50
प्रारंभिक अर्हता, परीक्षा (PET)-2022	16-10-2022/Shift-II	50
प्रारंभिक अर्हता, परीक्षा (PET)-2022	15-10-2022/Shift-I	50
प्रारंभिक अर्हता, परीक्षा (PET)-2022	15-10-2022/Shift-II	50
वन रक्षक परीक्षा-2022	21-8-2022	50
राजस्व लेखपाल (मुख्य परीक्षा)-2022 (सामान्य जानकारी + ग्रामीण जानकारी)	31.07.2022	50
सम्मिलित प्रवर/अवर वर्ग सहायक, पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा, -2022	17.07.2022	55
लघु सिंचाई विभाग, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा, -2022	30.07.2022	15
सहायक सांख्यिकी अधिकारी (ASO) भर्ती परीक्षा, -2022	22.05.2022	30
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् भर्ती परीक्षा, -2022	22.05.2022	30
महिला स्वास्थ्यकर्ता (ANM) भर्ती परीक्षा, -2022	08.05.2022	70
जूनियर इंजीनियर/तकनीकी भर्ती परीक्षा-2019,	16.04.2022	65
UPSSSC JE परीक्षा, 2016	19.12.2021	65
UPSSSC Lower मुख्य परीक्षा, 2019	21.10.2021/Shift-I	115
UPSSSC Lower मुख्य परीक्षा, 2019	21.10.2021/Shift-II	50
UPSSSC PET परीक्षा, 2021	24.08.2021/Shift-I	50
UPSSSC PET परीक्षा, 2021	24.08.2021/Shift-II	50
UPSSSC कम्प्यूटर ऑपरेटर परीक्षा, 2020	10.01.2020/Shift-II	40
UPSSSC कनिष्ठ सहायक परीक्षा, 2020	04.01.2020/Shift-I	40
UPSSSC कनिष्ठ सहायक परीक्षा, 2020	04.01.2020/Shift-I	40
UPSSSC होमियो पैथी फार्मासिस्ट परीक्षा, 2019	24.10.2019/Shift-I	50
लोवर परीक्षा, 2019	01.10.2019/Shift-I	75
लोवर परीक्षा, 2019	01.10.2019/Shift-II	75
लोवर परीक्षा, 2019	30.09.2019/Shift-I	75
लोवर परीक्षा, 2019	30.09.2019/Shift-II	75
गन्ना पर्यवेक्षक, 2016	31.08.2019	90
लोवर-II पुनर्परीक्षा, 2017	28.07.2019	75
लोवर-II निरस्त परीक्षा, 2017	15.07.2018	75
जूनियर असिस्टेंट/कनिष्ठ सहायक भर्ती पुनर्परीक्षा, 2016	31.05.2019	20
राज्य मण्डी परिषद् भर्ती परीक्षा, 2018	30-05-2019/Shift-I	75
राज्य मण्डी परिषद् भर्ती परीक्षा, 2018	30-05-2019/Shift-II	75
स्टेनोग्राफर (आशुलिपिक) भर्ती परीक्षा, 2017	10-03-2019	20

जूनियर असिस्टेंट/कनिष्ठ सहायक बैकलॉग भर्ती परीक्षा, 2017	19-02-2019	20
कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा, 2018	15-02-2019	75
सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक(सामान्य चयन) परीक्षा, 2018	23-12-2018/Shift-II	50
सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक (सामान्य चयन) परीक्षा, 2018	23-12-2018/Shift-I	50
सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक (सामान्य चयन) परीक्षा, 2018	22-12-2018/Shift-II	50
सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक (सामान्य चयन) परीक्षा, 2018	22-12-2018/Shift-I	50
विधान भवन रक्षक एवं वनरक्षक परीक्षा, 2018	02-12-2018/Shift-II	50
विधान भवन रक्षक एवं वनरक्षक परीक्षा, 2018	02-12-2018/Shift-I	50
सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी (सामान्य चयन) भर्ती परीक्षा, 2018	16-09-2018/Shift-I	75
सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी (सामान्य चयन) भर्ती परीक्षा, 2018	16-09-2018/Shift-II	75
ग्राम पंचायत अधिकारी (VDO) पुनर्परीक्षा, 2016	04-12-2016	30
आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा, 2016	25-09-2016	30
जूनियर इंजीनियर/तकनीकी भर्ती परीक्षा, 2016	31-07-2016	50
अमीन परीक्षा, 2016	14-08-2016	75
राजस्व निरीक्षक, 2016	17-07-2016	83
गन्ना पर्यवेक्षक, 2016	03-07-2016	86
लोअर-III भर्ती परीक्षा, 2016	26-06-2016	85
ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा, 2016	05-06-2016	30
जूनियर असिस्टेंट/कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, 2016	24-04-2016	20
स्टेनोग्राफर (आशुलिपिक) भर्ती परीक्षा, 2016	03-04-2016	20
लोअर-II भर्ती परीक्षा, 2016	06-03-2016	75
लोअर-I भर्ती परीक्षा, 2016	28-02-2016	85
ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा, 2015	21-02-2016	30
कम्बाइंड मेडिकल सर्विसेस (फाइलेरिया, मलेरिया इंस्पेक्टर) कम्पटेटिव परीक्षा, 2015	24-01-2016	60
जूनियर इंजीनियर/तकनीकी भर्ती परीक्षा, 2015	27-12-2015	60
वन रक्षक (Forest Guard) भर्ती परीक्षा, 2015	11-12-2015	50
UDA/LDA भर्ती परीक्षा, 2015	29-11-2015	130
असिस्टेंट एकाउन्टेन्ट भर्ती परीक्षा, 2015	22-11-2015	44
चकबन्दी लेखपाल भर्ती परीक्षा, 2015	08-11-2015/Shift-I	40
चकबन्दी लेखपाल भर्ती परीक्षा, 2015	08-11-2015/Shift-II	40
राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा, 2015	13-09-2015/Shift-I	25
राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा, 2015	13-09-2015/Shift-II	25
परिचालक (Conductor) भर्ती परीक्षा, 2015	23.08.2015	30
लघु सिंचाई विभाग, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा, 2015	09.08.2015	10
UPSSSC स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा, 2015	26.07.2015	20
जूनियर असिस्टेंट/कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, 2015	31.05.2015	20
Total		4033

नोट— उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा आयोजित प्रश्नपत्रों में से सामान्य जानकारी से सम्बन्धित 4033 प्रश्नों का अध्यायवार संकलन प्रस्तुत किया गया है।

Highlights

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) 2023 की परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नों का अध्यायवार संकलन

भाग-1 : इतिहास

प्राचीन इतिहास

सिन्धु घाटी सभ्यता

1. हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी?

- (a) राखलदास बनर्जी (b) बी. के. थापर
(c) सर अलेक्जेंडर कनिंघम (d) अर्नेस्ट जे. एच. मैके

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-II

Ans. (c) : अलेक्जेंडर कनिंघम (1814-1893) भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) के संस्थापक प्रमुख रहे और वास्तव में हड़प्पा को विश्व पुरातात्विक मानचित्र पर रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने 1853 में हड़प्पा से एक मुहर पाई थी। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। जबकि हड़प्पा स्थल की व्यापक खुदाई दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी।

2. निम्नलिखित में से किस स्थान पर “पुजारी राजाओं” की मूर्ति मिली थी?

- (a) लोथल (b) मोहनजोदड़ो
(c) कोटदीजी (d) हड़प्पा

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-I

Ans. (b) : सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से “पुजारी राजाओं” की मूर्ति मिली थी। मोहनजोदड़ो स्थल सिन्धु नदी के किनारे पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ से विशाल अन्नागार तथा काँसे की नाचती हुई मूर्ति आदि मिला है।

3. “बनावली” -सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर, वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?

- (a) गुजरात (b) मध्य प्रदेश
(c) राजस्थान (d) हरियाणा

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-II

Ans. (d) : “बनावली” सिंधु-घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर, वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। यह रंगोई नदी के तट पर स्थित था। इस पुरास्थल की खोज 1973-74 ई. में आर. एस. विष्ट ने की थी। यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है। राखीगढ़ी भी सिंधु-घाटी सभ्यता का स्थल है जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं।

राज्य **सिंधु-घाटी सभ्यता स्थल**

गुजरात - धौलावीरा, लोथल

राजस्थान - कालीबंगा

4. “पशुपति मुहर” सिंधु घाटी सभ्यता के _____ स्थल से मिली है।

- (a) बनवाली (b) लोथल
(c) कालीबंगा (d) मोहनजोदड़ो

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-I

Ans. (d) : “पशुपति मुहर” सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से मिली है। सैन्धव कालीन स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से वृहत् स्नानागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की प्रसिद्ध काँस्य मूर्ति पायी गई है।

5. भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है?

- (a) राखीगढ़ी (b) कालीबंगा
(c) रोपड़ (d) धौलावीरा

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (b) : हड़प्पा सभ्यता का स्थल, कालीबंगा (श्रीगंगा नगर, राजस्थान) जो कि घग्घर-हाकरा के पाट पर स्थित है, यहाँ से हड़प्पा पूर्व के चरणों में मृदभाण्ड आदि की प्राप्ति हुई है। यहाँ से अन्त्येष्टि संस्कार के तीनों विधियों पूर्व समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से भूकम्प के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

6. स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था?

- (a) कालीबंगा (b) देसलपुर
(c) लोथल (d) रोपड़

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)

Ans. (d) : पंजाब प्रान्त में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित रोपड़ हड़प्पा स्थल भारत का ऐसा सैन्धव स्थल है। जहाँ स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात् सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। 1950 में इसकी खोज बी.बी. लाल ने की तथा 1953-55 के दौरान यज्ञ दत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई यहाँ से संस्कृति के छः चरण मिले हैं।

वैदिक सभ्यता

7. वेदों में लिखे भगवान वरुण के आह्वान “शं नो वरुणः” को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अपनाया गया था?

- (a) भारतीय वायु सेना
(b) सोसायटी फॉर मरीन रिसर्च एंड कंजर्वेशन
(c) रीफ वॉच मरीन कंजर्वेशन
(d) भारतीय नौसेना

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-II

Ans. (d) : भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य- ‘शं नो वरुणः’ अर्थात् ‘जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हों।’ यह वाक्य भारतीय नौसेना द्वारा अपनाया गया था, भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसम्बर को मनाया जाता है।

8. वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है?

- (a) वेदांग (b) उपनिषद्
(c) आरण्यक (d) ब्राह्मण

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (b) : उपनिषद् वैदिक ग्रन्थ है; वेद चार हैं यथा- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद् वेदों के चार घटक हैं। इनमें से उपनिषद् वेदों के अंतिम घटक होते हैं; इस कारण इन्हें वेदान्त भी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 है, इनमें से 13 प्रसिद्ध हैं।

9. ऋषि मनु के अनुसार, पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृषद्वती के बीच का भूभाग _____ के नाम से जाना जाता था।
 (a) ब्रह्मवर्त (b) इंद्रप्रस्थ
 (c) वर्णावत (d) तक्षशिला
UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)
Ans. (a) : मनुस्मृति के अनुसार, 'ब्रह्मवर्त', सरस्वती एवं दृषद्वती नदियों के संगम पर स्थित था। 'ब्रह्मवर्त प्रदेश' में ऋषियों ने वेदों एवं अन्य वैदिक ग्रन्थों की रचना की थी।
10. ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है?
 (a) सतलुज और चिनाब (b) व्यास और सतलुज
 (c) चिनाब और रावी (d) व्यास और झेलम
UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-I)
Ans. (b) : ऋग्वेद में 'विश्वामित्र-नदी कथा' नाम कथोपकथन में ऋषि विश्वामित्र एवं शत्रुघ्न और विपाटा। विपाश नामक नदियों के मध्य संवाद का वर्णन है। इन दोनों नदियों का वर्तमान नाम व्यास एवं सतलुज है।
11. वेद, जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है, है-
 (a) अथर्ववेद (b) सामवेद
 (c) यजुर्वेद (d) ऋग्वेद
UPSSSC Combined Technical Exam. 26-03-2023
Ans. (c) : यजुर्वेद गद्य और पद्य मिश्रित है। इस वेद में कर्मकाण्ड कराने वाले पुरोहित को 'अध्वर्यु' कहा जाता था। इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। इसके दो भाग हैं- कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद।
- महाजनपद काल
12. निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी?
 (a) वैशाली (b) काशी
 (c) चंपा (d) मथुरा
UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-II
Ans. (d) :
- | | | |
|---------|---|---------|
| महाजनपद | - | राजधानी |
| शूरसेन | - | मथुरा |
| वज्जि | - | वैशाली |
| अंग | - | चम्पा |
| काशी | - | वाराणसी |
13. 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था?
 (a) अंग (b) मगध
 (c) वैशाली (d) वज्जि
UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-I
Ans. (b) : छठी शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार क्षेत्र में थी। इसके अन्तर्गत आधुनिक पटना एवं गया जिले शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज/राजगृह थी, जो पाँच पहाड़ियों से घिरी थी।
- जैन एवं बौद्ध धर्म
14. भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था?
 (a) नालंदा (b) अनंतपुरी
 (c) कौशाम्बी (d) जृम्भिकाग्राम
UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-II
Ans. (d) : भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुण्डग्राम (वैशाली) में हुआ था। इसके पिता का नाम 'सिद्धार्थ' और माता 'त्रिशला' लिच्छवी राजा
- चेतक की बहन थी। इनका बचपन का नाम 'वर्द्धमान' था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को 'जृम्भिक' के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए कैवल्य की प्राप्ति हुई।
15. माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ (गौतम बुद्ध) ने अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले छह साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रतापूर्वक ध्यान किया था?
 (a) लुम्बिनी (b) सारनाथ
 (c) दुंगेश्वरी गुफा (d) कुशीनगर
UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)
Ans. (c) : बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि बोधगया जाने से पहले गौतम बुद्ध ने दुंगेश्वरी गुफा में कई साल (लगभग 6 वर्ष) तपस्या की थी। यहीं पर सुजाता नामक महिला ने उन्हें जलपान कराया था। यह माना जाता है कि बुद्ध को यहीं से 'मध्यम मार्ग' का ज्ञान प्राप्त हुआ था।
16. निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था?
 (a) सारनाथ (b) वैशाली
 (c) श्रावस्ती (d) राजगीर
UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)
Ans. (b) : बौद्ध धर्म में महिलाओं को पहली बार प्रवेश आनन्द के आग्रह पर वैशाली में दिया गया। प्रजापति गौतमी सर्वप्रथम संघ में शामिल हुई थी। वैशाली के लिच्छवियों ने यहाँ पर 'कूटाग्रशाला' नामक विहार बुद्ध को दान में दिया था।
17. महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएँ कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं?
 (a) पटना, बिहार (b) श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश
 (c) बल्लभी, गुजरात (d) श्रवणबेलगोला, कर्नाटक
UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)
Ans. (c) : महावारी स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं का संकलन द्वितीय जैन संगीति (513/526 ई.) के समय वल्लभी, गुजरात में किया गया, यहाँ कुल 12 अंगों को लिपिबद्ध किया गया, संगीति की अध्यक्षता देवर्षि क्षमाश्रमण ने की थी। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र (322 BC) में की थी।
18. महावीर स्वामी को "जिन" के नाम से जाना जाने लगा, "जिन" का क्या अर्थ है?
 (a) विजेता (b) महान आत्मा
 (c) भगवान (d) अहिंसक
UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-I)
Ans. (a) : महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति के बाद 'जिन' उपाधि से विभूषित किया गया। यहाँ 'जिन' का अर्थ 'विजेता' है। 'जिन' के अतिरिक्त उन्हें 'अर्ह' (योग्य), निर्गुण (बंधन रहित), 'केवलिन' आदि उपाधियाँ प्राप्त थीं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव थे।
- मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य
19. जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य चार प्रांतीय केंद्रों सहित पाँच प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था?
 (a) तक्षशिला (b) उज्जयिनी
 (c) सुवर्णगिरि (d) इंद्रप्रस्थ
UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-I)

Ans. (d) : मौर्य साम्राज्य 5 प्रान्तों में विभाजित था जो निम्न हैं—
(प्रान्त) (राजधानी)
उत्तरापथ - तक्षशिला
दक्षिणापथ - सुवर्णगिरि
अवन्ति राष्ट्र - उज्जयिनी
प्राची (पूर्वी प्रदेश) - पाटलिपुत्र
कलिंग - तोसाली
इन्द्रप्रस्थ मौर्यों का राजनीतिक केन्द्र नहीं था।

20. निम्नलिखित में से किस सम्प्रदाय में बिन्दुसार की रुचि थी?

- (a) बौद्ध धर्म (b) लोकायत
(c) आजीवक (d) इनमें से कोई नहीं

UPSSSC Combined Technical Exam. 26-03-2023

Ans. (c) : मौर्य सम्राट बिन्दुसार, चन्द्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, जिसने 297 ई.पू. से 273 ई.पू. तक शासन किया था। आजीवक सम्प्रदाय के प्रवर्तक मन्खलि गोशाल थे। आजीवक सम्प्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इसके मत नियतिवाद (भाग्यवाद) कहा जाता है जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। लोकायत संप्रदाय को चार्वाक दर्शन भी कहा जाता है। इसके प्रणेता चार्वाक या बृहस्पति माने जाते हैं।

गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य

21. निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है?

- (a) नालंदा महाविहार (b) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
(c) विक्रमशिला (d) वल्लभी

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-I

Ans. (a) : नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने (415-455) के मध्य में करवाया था। यह विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में नालंदा जिला के राजगीर में स्थित है। 15 जुलाई 2016 की नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। 1200 ई. में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। वर्तमान में भारत में कुल 42 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं, जिनमें 7 प्राकृतिक, 34 सांस्कृतिक और 1 मिश्रित श्रेणी के हैं।

22. राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे?

- (a) हर्षवर्धन (b) सिम्हा विष्णु
(c) महेंद्रवर्मन I (d) दंतदुर्ग (दंतीवर्मन)

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-I

Ans. (d) : राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दन्तिदुर्ग (दंतीवर्मन 735-756 ई.) था। इनकी राजधानी मान्यखेत (शोलापुर, महाराष्ट्र) थी। ऐलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था।

- ज्ञात हो कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट, प्रतिहार और बंगाल के पाल शासक शामिल थे।
- राष्ट्रकूट का अंतिम महान शासक कृष्ण-III था, जिसके दरबार में शान्तिपुराण के रचनाकार कन्नड़ कवि पोन्न रहते थे।
- एलीफैंटा गुहामंदिरों का निर्माण भी राष्ट्रकूटों के समय में ही किया गया था।

23. निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्द्धन की पहली राजधानी थी?

- (a) पाटलिपुत्र (b) थानेसर
(c) बैशाली (d) मगध

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (b) : राज्यवर्द्धन की मृत्यु के बाद 606 ई. में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्द्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष वर्द्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है।

24. समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था?

- (a) भारवि (b) भास
(c) हरिषेण (d) बाणभट्ट

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)

Ans. (c) : समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत के एक कविता के रूप में कवि हरिषेण द्वारा रचित है। जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तम्भ पर अंकित किया गया था। समुद्र गुप्त के विजयों का प्रमुख स्रोत प्रयाग स्तम्भ लेख हैं, जो चम्पू शैली में लिखा गया है।

दक्षिण भारतीय राजवंश (संगम/पल्लव/चोल/चालुक्य)

25. निम्नलिखित में से कौन-सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती थी?

- (a) नेत्रावती नदी (b) गौतमी नदी
(c) कालिंदी नदी (d) पोन्नैयार नदी

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (a) : नेत्रावती नदी को ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती थी। बंटवाल नगर इसके किनारे स्थित होने के कारण इसे बंटवाल नदी भी कहते हैं। भारत के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र से होकर बहने वाली नेत्रावती नदी आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से कर्नाटक की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह अपनी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से एक विशाल क्षेत्र का पोषण करती है। नेत्रावती नदी पश्चिमी घाट में स्थित चिक्कमनलुरन जिले के गंगामूला से निकलती है।

26. निम्नलिखित में से कौन-सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था?

- (a) नागेश्वरम मंदिर (b) महाबलीपुरम मंदिर
(c) बृहदेश्वर मंदिर (d) हजार मंदिर

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-I

Ans. (b) : दक्षिण भारत के पल्लव शासकों के शासन काल में महाबलीपुरम (मामल्लपुरम) के विभिन्न मंदिरों का निर्माण कराया गया। इन मंदिरों में प्रमुख हैं— आदिवाराह मंदिर (सिंहविष्णु), एकाशम मंदिर रथ (नरसिंह वर्मन प्रथम), गणेश मंदिर (परमेश्वर वर्मन प्रथम) आदि हैं।

- कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसी मंदिर को राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं।
- पल्लव राजवंश की स्थापना 575 ई. में सिंहविष्णु ने की थी।

27. निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है?

- (a) विवेकानंद संग्रहालय (b) नेपियर संग्रहालय
(c) फोर्ट सेंट जार्ज संग्रहालय (d) कीलाडी संग्रहालय

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-II

Ans. (d) : कीलाडी संग्रहालय (तमिलनाडु) संगम युग के दौरान तमिल के जीवन को प्रदर्शित करता है। इसका निर्माण चेटीनाड शैली में किया गया है कीलाडी तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में वैगई नदी तट पर स्थित संगम काल की एक नगरीय बस्ती है।

28. चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे?

- (a) आदित्य I (b) विजयालय चोल
(c) अरिजय चोल (d) परांतक चोल I

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-I

Ans. (b) : चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय चोल ने की थी। चोलों का शासन 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ जब उन्होंने पल्लवों को हराया। इनका शासन 13वीं शताब्दी तक (पाँच से अधिक शताब्दियों तक) चलता रहा।

प्राचीनकालीन साहित्य एवं साहित्यकार

29. शूद्रक द्वारा लिखित “मृच्छकटिक” का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन-सा है?

- (a) निबंध (b) कविता
(c) टीका (d) नाटक

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-I

Ans. (d) : शूद्रक द्वारा लिखित “मृच्छकटिकम्” एक संस्कृत साहित्यिक नाटक है। मृच्छकटिकम् का अर्थ मिट्टी का खिलौना, इस नाटक में नायक चारुदत्त तथा गणिका बसन्तसेना के प्रेमकथा के विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन है।

30. तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है?

- (a) तोलकाप्पियम (b) शिलप्पादिकारम
(c) वलयपथि (d) मनिमेखलय

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-II

Ans. (a) : तोलकाप्पियम सबसे प्राचीन विद्यमान तमिल व्याकरण ग्रंथ है और तमिल साहित्य की सबसे पुरानी रचना है। तोलकाप्पियर द्वारा रचित यह ग्रंथ उस समय की राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की जानकारी प्रदान करता है। यह ग्रंथ नौ खंडों तथा तीन भागों में विभाजित व्याकरण और काव्य पर अनूठा ग्रंथ है।

31. नीतिसार (राजनीति के तत्त्व) जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था?

- (a) कामन्दक (b) वीरसेन
(c) विष्णुगुप्त (d) श्री हर्ष

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (a) : नीतिसार या कामंदकी का नीतिसार, राजनीति एवं शासन पर आधारित एक प्राचीन ग्रंथ है: जिसे चाणक्य के शिष्य कामंदक द्वारा लिखा गया है। उल्लेखनीय है कि नीतिसार में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है।

32. निम्नलिखित में से किसने “निरुक्त-व्युत्पत्ति- विज्ञान, भाषाशास्त्र और शब्दार्थ-विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ” नामक पुस्तक लिखी थी?

- (a) महर्षि पतंजलि (b) कालिदास
(c) श्री यस्काचार्य (d) कल्हण

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (c) : “निरुक्त-व्युत्पत्ति- विज्ञान, भाषाशास्त्र और शब्दार्थ-विज्ञान पर सबसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ श्री यास्काचार्य कृत निरुक्त जो की निघंटु पर एक टिप्पड़ी है, जो कि वेदों के अध्ययन के लिए सहायक ग्रंथ है। यह हिन्दू धर्म के छः वेदों में से एक है।

33. विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक “पंचतंत्र” जिसमें पशु दंतकथाएँ और कहानियाँ शामिल हैं, मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं से संबंधित हैं, जो मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी?

- (a) प्राकृत (b) पालि
(c) संस्कृत (d) मैथिली

UPSSSC Junior Assistant Exam. 27-8-2023

Ans. (c) : विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक “पंचतंत्र” संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें पशु दंतकथाएँ एवं कहानियाँ शामिल हैं। इसका रचनाकाल 300 ई.पू. के आस-पास माना जाता है।

प्राचीनकालीन स्थापत्य कला/चित्रकला/संगीतकला

34. “विजय नगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है।” निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है?

- (a) विरुपाक्ष मंदिर (b) तिरुपति मंदिर
(c) सोमनाथ मंदिर (d) मिनाक्षी मंदिर

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-II

Ans. (a) : विरुपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, यह विजयनगर स्थापत्य शैली में बनाया गया है। इस मंदिर में महाभारत का दृश्य अर्जुन द्वारा द्रौपदी से विवाह करने के लिए मछली को मारते हुए दिखाया गया है।

प्रमुख मंदिर राज्य
सोमनाथ मंदिर गुजरात (वेरावल बंदरगाह)
तिरुपति मंदिर आन्ध्रप्रदेश (चित्तूर)
मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु (मदुरै)

35. स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है

- (a) हर्मिका (b) छत्री
(c) अंडा (d) यशित

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-II

Ans. (a) : देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना ‘हर्मिका’ बौद्ध वास्तुकला का हिस्सा थी। हर्मिका को स्तूप के शीर्ष पर रखा जाता था और इसमें त्रि-स्तरीय छतरी या छत्रावली बनी होती है, जो बौद्ध धर्म के तीन रत्नों-बुद्ध, धर्म (बुद्ध की शिक्षाएँ) और संघ (बौद्ध धर्म वर्ग) का प्रतिनिधित्व करती थी।

36. त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर, जहाँ तीन नई गुफाएँ खोजी गई हैं, किस राज्य में स्थित है?

- (a) महाराष्ट्र (b) मध्य प्रदेश
(c) बिहार (d) उत्तर प्रदेश

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-I

Ans. (a) : त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा तीन नई गुफाएँ खोजी गई हैं। त्रिरश्मि गुफाओं को पाण्डव लेनी गुफा भी कहते थे। जो कि 25 गुफाओं का समूह है। ये सभी गुफाएँ दूसरी से छठी शताब्दी ईसा पूर्व निर्मित की गई थी।

37. निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग है।

- (a) हम्पी स्मारकों का समूह - विजयनगर राजवंश
(b) लिंगराज मंदिर - सोमवंशी राजवंश
(c) खजुराहों - चोल राजवंश
(d) हजार स्तंभ मंदिर - काकतीय राजवंश

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-II

Ans. (c) : खजुराहो मंदिर का निर्माण 950-1050 ई0 के मध्य चंदेल शासकों ने कराया था। खजुराहो के मन्दिर सभी प्रमुख भारतीय मूल के धर्मों-वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन से सम्बन्ध रखते हैं। जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में विंध्य पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है। खजुराहो के मंदिर वास्तुकला के नागर ‘शैली’ का अद्भुत उदाहरण है। इन मंदिरों को यूनेस्को द्वारा वर्ष 1986 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था।

38. कलमकारी चित्रकला का संबंध है:

- (a) उत्तर-पूर्व भारत में बाँस हस्तशिल्प पर एक हस्तनिर्मित चित्र।
(b) उत्तर-पश्चिमी भारत में हाथ से चित्रित सजावटी रेशमी कपड़ा।

- (c) भारत के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक ब्लॉक चित्रित ऊनी कपड़ा।
(d) दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा।

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-I

Ans. (d) : दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्त निर्मित चित्रकला कलमकारी सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छापकर बनाई जाती हैं इसमें सब्जियों के रंगों से धार्मिक चित्र बनाये जाते हैं। कलमकारी चित्र कहानी को कहते हैं। इनको बनाने वालों में अधिकतर महिलाएँ हैं। यह कला मुख्यतया भारत और ईरान में प्रचलित है।

मध्यकालीन इतिहास

दिल्ली सल्तनत (गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैय्यद एवं लोदी वंश)

39. खिज़्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था?

- (a) तुर्की राजवंश (b) तुगलक राजवंश
(c) सैय्यद राजवंश (d) लोदी राजवंश

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)

Ans. (c) : खिज़्र खान दिल्ली का शासक था। वह सैय्यद वंश से संबंधित था। सैय्यद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था जिसके चार शासक थे जिन्होंने 1414 से 1451 तक शासन किया। भारत से वापस जाते समय तैमूर ने खिज़्र खान को मुल्तान के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। उसने दिल्ली पर कब्जा कर 1414 ई. में सैय्यद वंश की स्थापना की।

सिक्ख धर्म/भक्ति आंदोलन

40. अपने संदेश के प्रचार-प्रसार के लिए हिन्दी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे?

- (a) कबीर (b) तुलसीदास (c) दादू (d) रामानंद

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-II

Ans. (d) : स्वामी रामानन्द मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन के सन्त थे। उन्होंने राम भक्ति की धारा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाया। वे पहले ऐसे आचार्य हुये जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। इन्होंने अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग किया। उनके बारे में प्रचलित कहावत है कि- भक्ति द्राविड़ उपजी, लाये रामानन्द।

मुगल काल

41. निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी?

- (a) शाहजहाँ (b) अकबर (c) जहाँगीर (d) औरंगजेब

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-II

Ans. (d) : मुगल सम्राट औरंगजेब ने वर्ष 1691 में एक फरमान या शाही आदेश जारी किया, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी हालांकि निजी व्यापार करने वाली अधिकारियों को अभी भी शुल्क का भुगतान व्यापार करना पड़ता था।

42. टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था?

- (a) खान-ए-आजम (b) खान-ए-खान
(c) अज़ियाओ-दीन (d) मुशरिफ-ए-दीवान

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-I

Ans. (d) : टोडरमल को 'मुशरिफ-ए-दीवान' के नाम से जाना जाता था। टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। राजा टोडरमल ने राजस्व एकत्र करने की नयी व्यवस्था शुरू की जिसे 'जब्ती प्रणाली' या दहसाला व्यवस्था के रूप में जाना है।

43. मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था?

- (a) खानवा (b) चौसा (c) चंदेरी (d) मालवा

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (a) : मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा में 1527 ई. में राणा सांगा एवं उनके सहयोगियों को हराया था। बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध को जिहाद का नाम दिया और जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण की। राणा सांगा को बड़ी संख्या में राजदूत प्रमुखों का सहयोग मिला, जिनमें जालौर, सिरौही, डूंगरपुर और अम्बेर प्रमुख हैं। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था।

मध्यकालीन स्थापत्य एवं चित्रकला

44. दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था?

- (a) औरंगजेब (b) शाहजहाँ
(c) अकबर (d) जहाँगीर

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-II

Ans. (b) : दिल्ली के लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहाँ ने करवाया था। इस किले को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। किले की दीवारें लाल बलुआ पत्थर की बनी हैं, जो 75 फीट ऊँची हैं, परिसर में प्रसिद्ध हॉल (दीवान-ए-आम) है, जिसमें 60 लाल बलुआ पत्थर के खंभे हैं।

45. बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे "दक्खन का दरवाजा" के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था?

- (a) शिवदत्त अहीर (b) ईश्वरसेन अहीर
(c) आसा अहीर (d) रुद्रसिंह अहीर

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (c) : बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ जिसे 'दक्खन का दरवाजा' के नाम से जाना जाता है। 15वीं शताब्दी में यदुवंशी राजा आसा अहीर द्वारा बनवाया गया था। यह किला अपने आधार से 259.1 मीटर ऊँचा है। इस किले के अंदर एक मस्जिद, शिव का मंदिर तथा एक महल है।

46. फ़िरोज़शाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फ़िरोज़शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के तट पर बनाया गया था?

- (a) गोदावरी (b) गंगा
(c) हिंदन (d) यमुना

UPSSSC Junior Assistant Exam. 27-8-2023

Ans. (d) : फ़िरोज़शाह कोटला किला वर्ष 1354 ई. में सुल्तान फ़िरोज़शाह तुगलक द्वारा यमुना नदी के तट पर बनाया गया था। फ़िरोज़शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का शासक था। फ़िरोज़शाह तुगलक के शासन काल के दौरान 300 नए शहरों का निर्माण हुआ।

मध्यकालीन साहित्य एवं संगीतकार

47. अकबरनामा का खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व (आय) और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है जिसे आइने अकबरी के नाम से जाना जाता है।

- (a) पहला (b) दूसरा
(c) चौथा (d) तीसरा

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (d) : अकबरनामा का तीसरा खण्ड अकबर के प्रशासन घर सेना, राजस्व, (आय) और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है। जिसे आइने अकबरी के नाम से जाना जाता है। अबुल फजल ने अकबरनाम ग्रंथ की रचना की। यह भारत में रहने वाले लोगों की परम्पराओं और संस्कृति के बारे में समृद्ध विवरण भी प्रस्तुत करता है।

आधुनिक इतिहास

भारत में यूरोपियों का आगमन पुर्तगाली/डच/अंग्रेज/फ्रांसीसी

48. भारत में वीओसी (वेरीनिगडे ऊस्टिन्डिशे कॉम्पैनी) VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था?

- (a) पुर्तगाली (b) डच (c) फ्रेंच (d) ब्रिटिश

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-II

Ans. (b) : भारत में वीओसी (वेरीनिगडे ऊस्टिन्डिशे कॉम्पैनी) का गठन 1602 ई. में डचों द्वारा किया गया था। 1605 ई. में डचों ने आंध्र प्रदेश के मुसलीपत्तन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। कपास, अफीम, नील, रेशम और चावल प्रमुख भारतीय वस्तुएँ थी, जिनका व्यापार डचों द्वारा किया जाता था।

49. पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है?

- (a) गोवा (b) पुदुचेरी (c) पश्चिम बंगाल (d) ओडिशा

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-I)

Ans. (c) : पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के बंदेल शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1599 में की गई थी। यह भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। इस चर्च को बेसिलिका ऑफ द होली रोजरी के नाम से भी जाना जाता है।

50. चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था?

- (a) दि इंडियन लीग
(b) स्वराज पार्टी
(c) हिंदुस्तान सोशियलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन
(d) दि बॉम्बे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-I)

Ans. (b) : सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू परिषद की राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया। सितम्बर, 1923 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान की गई। पार्टी के अध्यक्ष सी.आर. दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे।

मराठा साम्राज्य

51. शिवाजी की मृत्यु के बाद, मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार द्वारा संभाली गई थी, जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी।

- (a) चितपावन ब्राह्मण (b) पाटिल
(c) देशमुख (d) कुनबी

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-I

Ans. (a) : मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु के बाद, मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति पेशवाओं के हाथ में चली गई जोकि चितपावन ब्राह्मण थे। मराठा साम्राज्य में प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। उन्हीं के शासन काल से यह पद वंशानुगत हो गया और एक ही परिवार के हाथों में सत्ता बनी रही।

52. निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान करें :

- (i) सिंधिया (a) इंदौर
(ii) होलकर (b) नागपुर
(iii) गायकवाड़ (c) उज्जैन
(iv) भोंसले (d) बड़ौदा

- (a) (i)-(b), (ii)-(a), (iii)-(d), (iv)-(c)
(b) (i)-(c), (ii)-(d), (iii)-(b), (iv)-(a)
(c) (i)-(d), (ii)-(a), (iii)-(b), (iv)-(c)
(d) (i)-(c), (ii)-(a), (iii)-(d), (iv)-(b)

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (d) : सही सुमेलन इस प्रकार है-

मराठा प्रमुख	संबंधित क्षेत्र
सिंधिया	- उज्जैन
होलकर	- इंदौर
गायकवाड़	- बड़ौदा
भोंसले	- नागपुर

53. शिवाजी की मृत्यु के बाद, मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चितपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा (या प्रधान मंत्री) के रूप में सेवा दी थी, कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया?

- (a) सतारा (b) नागपुर (c) नासिक (d) पूना (पुणे)

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-I)

Ans. (d) : 1713 ई. में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा घोषित किया। इससे मराठा साम्राज्य का पेशवा युग प्रारंभ हुआ। इस काल के दौरान 'पुणे/पूना' मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गयी।

स्वतंत्र राष्ट्र (मैसूर/बंगाल/पंजाब/अवध)

54. श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निज़ाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।

- (a) लॉर्ड वेलेजली (b) लॉर्ड कार्नवालिस
(c) लॉर्ड कैनिंग (d) लॉर्ड डलहौजी

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-II

Ans. (b) : श्री रंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मार्च, 1792 ई. में हुई टीपू सुल्तान ने अपने दो पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजों को सौंप दिया और तीन करोड़ रु. युद्ध हरजाने के रूप में दिये, जो तीन मित्रों (अंग्रेज-निज़ाम-मराठा) में बराबर बाँट लिये गए। इसके हस्ताक्षरकर्ता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान शामिल थे। यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात हुआ।

अंग्रेजों की आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक नीतियाँ

55. निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में हेनरी गौगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी?

- (a) मुंबई (b) चेन्नई
(c) कोलकाता (d) अहमदाबाद

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-II

Ans. (c) : वर्ष 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में हेनरी गौगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना कोलकाता में की गई थी। किन्तु भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में कावासजी नानाबाई डाबर द्वारा की गई थी।

किसान, मजदूर एवं वामपंथी आन्दोलन

56. 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था?

- (a) महात्मा गाँधी (b) जवाहरलाल नेहरू
(c) मोतीलाल नेहरू (d) सरदार वल्लभभाई पटेल

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (b) : 1920 ई. में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च जवाहर लाल नेहरू द्वारा आयोजित किया गया था।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

57. मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में "रामकृष्ण मिशन" की स्थापना किसने की थी?

- (a) रामकृष्ण परमहंस (b) स्वामी ब्रह्मानंद
(c) स्वामी विवेकानंद (d) स्वामी दयानंद सरस्वती

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-I

Ans. (c) : स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी, 1863 कलकता के कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेन्द्र नाथ दत्त था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में की थी। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद का भारतीयों के लिए संदेश था, जागो उठो और तब तक प्रयास करो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो।

58. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (I.N.C.) और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग (A.I.M.L.) ने प्रसिद्ध के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया।

- (a) लखनऊ पैक्ट, 1916
(b) भारत सरकार अधिनियम (गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट), 1935
(c) भारत में प्रवेश अध्यादेश (इंग्रेस इनटू इंडिया ऑर्डिनेंस), 1914
(d) गांधी-इरविन पैक्ट, 1931

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (a) : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (I.N.C.) और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग (A.I.M.L.) ने प्रसिद्ध लखनऊ पैक्ट, 1916 के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। इस कार्य में प्रयास करने के लिए सरोजनी नायडू को मोहम्मद अली जिन्ना ने हिन्दू-मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी थी।

बंगाल विभाजन

59. बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र (आंध्र के डेल्टा क्षेत्र) में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था?

- (a) होम रूल आंदोलन (b) वंदे आंदोलन
(c) वंदेमातरम आंदोलन (d) क्रांतिकारी आंदोलन

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)

Ans. (c) : वंदे मातरम् आन्दोलन 1905 के बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 11 फरवरी, 1907 को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। इस अवधि में कृष्णा जिले के लोगों में राष्ट्रीय जागृति की भावना देखी गई। इस आंदोलन के प्रमुख नेता हरिसर्वोत्थामा राव, पिंगली लक्ष्मी नारायण, कासिन धुनी वीरा, मल्लया, बोदी नारायण राव एवं अन्य थे। अप्रैल 1907 में बिपिन चन्द्र पाल ने विजयवाड़ा और मुसलीपट्टनम की यात्रा की और स्वदेशी और वंदे मातरम् की उत्पत्ति और अर्थ पर भाषण दिया।

क्रांतिकारी आंदोलन

60. निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में "मंडी षड्यंत्र" हुआ?

- (a) आज़ाद हिंद फौज (INA)
(b) गदर पार्टी
(c) हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन
(d) अभिनव भारत सीक्रेट सोसायटी

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (b) : हिमालय के मंडी की जनता ने स्थानीय शासक एवं उसके वजीर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से तंग आकर सन 1914-15 ई. में गदर पार्टी के भाई हिरदाराम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इसे गदर की गुंज, गदर संदेश, एलान-ए-जंग नाम से जाना जाने लगा। इसमें मियाँ जवाहर सिंह और खैरगढ़ी की रानी ने क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता प्रदान की।

61. 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय _____ में स्थित था।

- (a) दिल्ली (b) लाहौर
(c) कलकता (d) सैन फ्रांसिस्को

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-I)

Ans. (c) : 1913 ई. में जब हिन्दुस्तान गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, उस समय उसका कार्यालय 436 हिल स्ट्रीट में था जिसे युगान्तर आश्रम नाम दिया गया था। ये स्थान 'सैन फ्रांसिस्को' में है।

62. निम्नलिखित में से कौन-सा अरबिंदो के स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा था?

- (a) गुप्त समाजों का संगठन (b) निष्क्रिय प्रतिरोध
(c) संवैधानिक आंदोलन (d) आतंकवाद

UPSSSC Combined Technical Exam. 26-03-2023

Ans. (b) : अरबिंदो घोष एक भारतीय दार्शनिक, योगी, कवि और राष्ट्रवादी थे। इनका जन्म 15 अगस्त, 1872 को कलकता में हुआ था। इन्होंने भारत की राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के दौरान सामाजिक परिवर्तन के लिए एक तकनीकी रूप से निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का उपयोग किया था। उन्होंने यह विचार आयरलैंड के निष्क्रिय प्रतिरोध से लिया था, जो गाँधीजी के निष्क्रिय प्रतिरोध से बिल्कुल अलग था। इनके अनुसार निष्क्रिय प्रतिरोध अहिंसात्मक होना चाहिए, परंतु यदि सरकार निर्दयी है, तो हिंसा का प्रयोग करने से भी चूकना नहीं चाहिए।

महात्मा गाँधी एवं उनके प्रारम्भिक आंदोलन

63. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाएँ:

(i)	बारडोली में किसान आंदोलन	(a)	1921
(ii)	महात्मा गाँधी ने नोआखली की यात्रा की	(b)	1918
(iii)	गाँधीजी ने लंगोटी पहनना शुरू किया	(c)	1946
(iv)	अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल	(d)	1928

- (a) (i)-(d), (ii)-(c), (iii)-(b), (iv)-(a)
(b) (i)-(d), (ii)-(b), (iii)-(c), (iv)-(a)
(c) (i)-(d), (ii)-(c), (iii)-(a), (iv)-(b)
(d) (i)-(b), (ii)-(c), (iii)-(d), (iv)-(a)

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)

Ans. (c) : सही सुमेलन इस प्रकार है—

(i)	बारडोली में किसान आंदोलन	(a)	1928
(ii)	महात्मा गाँधी ने नोवाखली की यात्रा की	(b)	1946
(iii)	गाँधीजी ने लंगोटी पहनना शुरू किया	(c)	1921
(iv)	अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल	(d)	1918

64. निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभभाई पटेल को "सरदार" की उपाधि मिली?

- (a) बारडोली सत्याग्रह (b) खेड़ा सत्याग्रह
(c) चंपारण सत्याग्रह (d) दांडी यात्रा

UPSSSC Junior Assistant Exam. 27-8-2023

Ans. (a) : बारडोली सत्याग्रह (गुजरात) वर्ष 1928 में घटित प्रमुख किसान आन्दोलन था। प्रान्तीय सरकार ने कृषकों के लगान में 22% की वृद्धि कर दी थी। वल्लभभाई पटेल ने लगान वृद्धि का विरोध किया तथा सत्याग्रह प्रारम्भ किया। अन्ततः सरकार को विवश होकर लगान घटाकर 6.03% करना पड़ा। बारडोली सत्याग्रह के सफल होने पर वहाँ की महिलाओं की तरफ से महात्मा गाँधी ने वल्लभभाई पटेल को 'सरदार' की उपाधि से सम्बोधित किया।

असहयोग आंदोलन

65. गाँधीजी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था?
 (a) चोरी-चोरा घटना (b) बंगाल अकाल
 (c) साइमन आयोग की नियुक्ति (d) काकोरी ट्रेन डकैती

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-I

Ans. (a) : चोरी-चोरा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित एक कस्बा है। इस कस्बे में 4 फरवरी, 1922 को एक हिंसक घटना घटित हुई थी। किसानों की भीड़ ने यहाँ के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिसके कारण 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। इस घटना के कारण महात्मा गाँधी ने असहयोग आंदोलन (1920-22) को वापस ले लिया।

66. वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गाँधीजी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई?
 (a) चार (b) तीन
 (c) आठ (d) छह

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)

Ans. (d) : असहयोग आन्दोलन के स्थगन के बाद गाँधी जी को 10 मार्च, 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च, 1922 को अहमदाबाद के सत्र न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गाँधी को 6 वर्ष की सजा सुनायी, लेकिन बाद में 5 फरवरी, 1924 को बीमारी के कारण उन्हें समय से पूर्व रिहा कर दिया गया।

67. कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गाँधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ-साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था?
 (a) बॉम्बे (b) लाहौर
 (c) कलकत्ता (d) नागपुर

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-I)

Ans. (d) : कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इसके साथ 'स्वशासन' के स्थान पर 'स्वराज' का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम तय किये गये-

1. सभी वयस्कों को कांग्रेस की सदस्यता प्रदान करना।
2. हिन्दू-मुस्लिम एकता का संवर्दन (खिलाफत के संदर्भ में)।
3. भाषायी आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन।
4. हिन्दुओं से अस्पृश्यता का निवारण।

साइमन कमीशन/सविनय अवज्ञा आन्दोलन

68. वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम/विधेयक प्रस्तावित किया गया था?
 (a) इल्बर्ट बिल
 (b) अधिकारों का बिल
 (c) आपराधिक जनजाति अधिनियम
 (d) सिंध भूमि उद्भयन विधेयक

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-I)

Ans. (b) : वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा अधिकारों का बिल विधेयक प्रस्तावित किया गया था। इस रिपोर्ट की अन्य सिफारिशें निम्न प्रकार थीं।

- * भारत को डोमिनियम राज्य का दर्जा।
- * भारत का एक संघ हो, जिसके नियंत्रण में केन्द्र में द्विसदनीय, विधानमण्डल होगा, गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया भर की रहेगी।

गाँधी-इरविन समझौता/गोलमेज सम्मेलन

69. निम्नलिखित में से किसने सभी तीन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था?
 (a) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (b) चित्तरंजन दास
 (c) महात्मा गाँधी (d) लाला लाजपत राय

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-I

Ans. (a) : डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों (12 नवम्बर, 1930, 7 सितम्बर, 1931 तथा 17 नवम्बर, 1932) में भाग लिया था। गाँधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन राजपूताना जहाज से गए थे। कराची अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि "गाँधी मर सकता है, परन्तु गाँधीवाद नहीं।" 20 सितम्बर, 1932 को गाँधी जी ने आमरण अनसन किया इसका मुख्य कारण जेम्स रैम्जे मैकडोनाल्ड द्वारा साम्प्रदायिक निर्णय की घोषणा करना था।

- तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैम्जे मैकडोनाल्ड थे।

70. ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था?
 (a) द्वितीय गोलमेज सम्मेलन
 (b) प्रथम गोलमेज सम्मेलन
 (c) भारत सरकार अधिनियम, 1919
 (d) पूना समझौता, 1932

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (a) : ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया। सांप्रदायिक पुरस्कार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था। इस सम्मेलन में राजनीतियों की कुटिल चाल के कारण साम्प्रदायिक समस्या उभरकर सामन आयी। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानसमण्डलों में कुछ सीटें सुरक्षित रखी गईं, जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मण्डलों द्वारा किया जाना था। मुस्लिम सिख व ईसाई के साथ ही नए पंचाट में दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिन्दुओं से अलग कर दिया गया।

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (a) : ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया। सांप्रदायिक पुरस्कार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था। इस सम्मेलन में राजनीतियों की कुटिल चाल के कारण साम्प्रदायिक समस्या उभरकर सामन आयी। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानसमण्डलों में कुछ सीटें सुरक्षित रखी गईं, जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मण्डलों द्वारा किया जाना था। मुस्लिम सिख व ईसाई के साथ ही नए पंचाट में दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिन्दुओं से अलग कर दिया गया।

मुस्लिम लीग

71. निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त, 1946 को "प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस" मनाया था?
 (a) मुस्लिम लीग (b) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
 (c) आज़ाद हिंद फौज (INA) (d) स्वराज पार्टी

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (a) : मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त, 1946 ई. को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया था। इस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी।

कैबिनेट मिशन/संविधान सभा

72. 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गाँधीजी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था?
 (a) सर स्टैफोर्ड क्रिप्स (b) लॉर्ड रिपन
 (c) लॉर्ड माउंटबैटन (d) लॉर्ड लिनलिथगो

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (a) : द्वितीय विश्वयुद्ध में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य गाँधी जी और कांग्रेस से समझौता करना था। यह एक असफल प्रयास सिद्ध हुआ।

आजाद हिन्द फौज/सुभाष चन्द्र बोस

73. सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोड़रांग में आईएनए (INA) ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है?

- (a) सिक्किम (b) लद्दाख
(c) मिजोरम (d) मणिपुर

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (d) : 14 अप्रैल, 1944 को कर्नल शौकल मलिक की कमान के तहत, आईएनए की 'सुभाष रेजीमेंट' में 'मणिपुर' के 'विष्णुपुर' जिले के शहर 'मोड़रांग' में ब्रिटिश सेना के खिलाफ जीत हासिल की इस जीत को चिन्हित करने के लिए आईएनए ने मोड़रांग में अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

74. 13 जून, 1943 को सुभाषचंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे?

- (a) रासबिहारी बोस (b) बारिन्द्र कुमार घोष
(c) शरतचंद्र बोस (d) चित्तरंजन दास

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)

Ans. (a) : रासबिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चन्द्र बोस 13 जून, 1943 को पूर्वी एशिया आए। यहाँ उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता तथा आईएनए प्रमुख की कमान संभाली।

75. निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज शामिल थी?

- (a) प्रथम विश्व युद्ध
(b) द्वितीय विश्व युद्ध
(c) 1857 के भारतीय संग्राम
(d) प्रथम और द्वितीय दोनों विश्व युद्ध

UPSSSC Combined Technical Exam. 26-03-2023

Ans. (b) : आजाद हिंद फौज की स्थापना टोक्यो (जापान) में 1942 में रासबिहारी बोस ने की थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध (1939-45) के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। इस फौज में लगभग 85000 सैनिक शामिल थे। सुभाष चंद्र बोस के रेडियो पर किए गए एक आह्वान के बाद रासबिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को सुभाष चन्द्र बोस को इसका नेतृत्व सौंप दिया था।

गवर्नर/गवर्नर जनरल/वायसराय

76. 1851 में, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन "एक चेरी जो एक दिन हमारे मुँह में गिरेगी" के रूप में किया था?

- (a) सतारा (b) कन्नौह
(c) अवध (d) झाँसी

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (c) : 1851 ई. में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य का वर्णन "एक चेरी जो एक दिन हमारे मुँह में गिरेगी के रूप में किया है।

77. कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी?

- (a) लॉर्ड विलियम बेंटिंक (b) रिचर्ड वेलेजली
(c) वॉरेन हेस्टिंग्स (d) जोनाथन डंकन

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)

Ans. (b) : कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में रिचर्ड वेलेजली द्वारा की गई थी जो कलकत्ता के फोर्ट विलियम परिसर के भीतर स्थित था। इस कॉलेज का उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण देना था।

समाचार पत्र/पुस्तक

78. निम्नलिखित में से कौन "द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया" पुस्तक के लेखक हैं?

- (a) जॉन मिल्टन (b) जवाहरलाल नेहरू
(c) माणिक बंदोपाध्याय (d) एनी बेसेंट

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-I

Ans. (d) : "द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया" पुस्तक के लेखक श्रीमती एनी बेसेंट हैं। एनी बेसेंट नवम्बर 1893 को मद्रास के अड्यार में थियोसोफिकल सोसाइटी के वार्षिक सम्मेलन में शामिल होने आयरलैंड से भारत आई और फिर वे हमेशा के लिए भारत की ही होकर रह गई। इन्होंने 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिन्दू कॉलेज की भी स्थापना की थी।

79. निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने "हिंद्स फॉर सेल्फ-कल्चर" नामक पुस्तक लिखी थी?

- (a) रवीन्द्रनाथ टैगोर (b) लाला लाजपत राय
(c) लाला हरदयाल (d) बाल गंगाधर तिलक

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)

Ans. (c) : भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला हरदयाल ने 'हिंद्स फॉर सेल्फ कल्चर' नामक पुस्तक लिखी थी। लाला हरदयाल एक भारतीय राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे जिन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी।

इतिहास विविध

80. निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया?

- (a) 1813 का चार्टर अधिनियम
(b) 1833 का चार्टर अधिनियम
(c) पिट्स इंडिया अधिनियम, 1784
(d) 1853 का चार्टर अधिनियम

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-II

Ans. (b) : चार्टर अधिनियम, 1833 ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में आया था। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वाणिज्यिक विशेषाधिकारों से वंचित हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार खो दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।

81. निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में "इंडिया हाउस-एक छात्र निवास" की स्थापना की थी?

- (a) श्यामजी कृष्ण वर्मा (b) चित्तरंजन दास
(c) मैडम भीकाजी कामा (d) मदनलाल धींगरा

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-II

Ans. (a) : श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वर्ष 1905 में लंदन में "इंडिया हाउस-एक छात्र निवास" की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर, 1857 को गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी कस्बे में हुआ था। वह बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानन्द सरस्वती और हर्बर्ट स्पेन्सर से प्रेरित थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा बॉम्बे आर्य समाज के पहले अध्यक्ष बने।

82. 1722 में, _____ की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी।

- (a) आमेर (b) मालवा (c) लखनऊ (d) आगरा

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-I)

Ans. (d) : वर्ष 1722 में सवाई राजा जयसिंह को आमेर का सूबेदार नियुक्त किया गया एवं कुछ समय बाद मुहम्मदशाह के शासनकाल में उन्हें गुजरात का भी सूबेदार बना दिया गया। इन्हें 'सवाई' की पदवी फर्रुखशियर ने दी थी।

83. विश्वभारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की थी?

- (a) रवीन्द्रनाथ टैगोर (b) अरबिंद घोष
(c) एनी बेसेंट (d) राजा राममोहन राय

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-I

Ans. (a) : विश्वभारती विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1921 में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। यह भारत में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है। वर्ष 1951 में केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था।

84. भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता था?

- (a) क्विंग (b) उमय्यद
(c) ओटोमन (d) सासैनियन

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (c) : तुर्की साम्राज्य को ऑटोमन साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। यहाँ का शासक पूरे मुस्लिम जगत का धार्मिक प्रमुख 'खलीफा' था। इसके पूर्व 'अब्बासी' और 'उमय्यद' नाम से 'खलीफा' रहे हैं।

85. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया?

- (a) 1938 (b) 1939
(c) 1941 (d) 1940

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (b) : वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस में 8 राज्यों में सरकार बनाया। लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध में वायसराय के बिना विधान मंडलों की सहमति के भारत को युद्ध में शामिल कर लिया, परिणामस्वरूप कांग्रेस मंत्रिमण्डल ने 8 माह शासन करने के बाद इस्तीफा दे दिया। 1939 में मुस्लिम लीग ने इसे 'मुक्ति दिवस' एवं 'धन्यवाद दिवस' के रूप में मनाया, डॉ. अम्बेडकर ने भी इनका साथ दिया।

86. मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे?

- (a) मध्य प्रदेश (b) हरियाणा
(c) गुजरात (d) राजस्थान

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (d) : 'आदिवासियों के मसीहा' के नाम से प्रसिद्ध मोतीलाल तेजावत का संबंध राजस्थान से था। इन्होंने सर्वप्रथम चित्तौड़ जिले के मातृकुण्डिया नामक स्थान पर सन् 1921 में एकी आन्दोलन का सूत्रपात किया। सन 1939 में इन्होंने प्रजामण्डल आन्दोलन में भाग लिया।

87. भारत सरकार अधिनियम, 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम, बहुत लंबा होने के कारण, दो अलग-अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था अर्थात् भारत सरकार अधिनियम, 1935 और _____।

- (a) ढाका सरकार अधिनियम, 1935
(b) बर्मा सरकार अधिनियम, 1935
(c) व्हाइट सरकार अधिनियम, 1935
(d) क्रिप्स सरकार अधिनियम, 1935

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)

Ans. (b) : अगस्त, 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम, ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया सबसे लम्बा अधिनियम है। इसके वृहद आकार की वजह से इसे दो अलग-अलग अधिनियमों में बाँटा गया। यथा भारत सरकार अधिनियम, 1935 तथा बर्मा सरकार अधिनियम 1935।

88. निम्नलिखित में से कौन "खुदाई खिदमतगार" का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता है?

- (a) सैयद अहमद खान
(b) हकीम अजमल खान
(c) मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
(d) खान अब्दुल गफ्फार खान

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-I)

Ans. (d) : उत्तर-पश्चिम-सीमा प्रांत में बादशाह खान। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा गठित 'खुदाई खिदमतगार' पठान सत्याग्रहियों का दल था। जिसके द्वारा सविनय अवज्ञा के दौरान पेशावर में आन्दोलन का नेतृत्व किया गया।

भाग-2 : भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था

संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं

89. मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था?

- (a) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
(b) विजय लक्ष्मी पंडित
(c) बालासाहेब गंगाधर खेर
(d) प्रेम बिहारी नारायण रायजादा

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-II

Ans. (d) : मूल भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित है। इनका जन्म 1901 ई. में दिल्ली में हुआ था। इन्होंने लेखन कार्य मुफ्त में किया था; जबकि संविधान के पन्नों को सजाने का काम शांति निकेतन के कलाकारों को दिया गया था।

90. 13 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा में "उद्देश्य प्रस्ताव (ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन)" किसके द्वारा पेश किया गया था?

- (a) जवाहरलाल नेहरू (b) सरदार वल्लभभाई पटेल
(c) सरोजिनी नायडू (d) डॉ. राजेंद्र प्रसाद

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (a) : 13 दिसम्बर, 1946 को पं. जवाहर लाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने "उद्देश्य प्रस्ताव" पेश किया था। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह ढांचा सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था।

91. निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था?

- (a) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(b) वेवेल योजना 1945
(c) 1909 का परिषद् अधिनियम
(d) भारत सरकार अधिनियम, 1919

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (b) : 1909 का भारतीय परिषद् अधिनियम 1892 के सुधारों का विस्तार था। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में प्रांतीय विधान परिषद में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर उन्हें बहुमत प्रदान कर दिया गया जबकि 1892 के सुधारों में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिकाओं में सरकारी सदस्यों का बहुमत था।

प्रस्तावना

92. भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है?

- (a) विश्वास की स्वतंत्रता
- (b) धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
- (c) विचार की स्वतंत्रता
- (d) आर्थिक स्वतंत्रता

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-II

Ans. (d) : 'स्वतंत्रता' शब्द का अर्थ राज्य से व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध की अनुपस्थिति है, जिन्हें संविधान में अनुच्छेद 19-22 के तहत मौलिक अधिकारों के माध्यम से गारंटी दी गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ज्ञातव्य है कि संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है।

93. भारतीय संविधान में "सामाजिक समानता" का अर्थ है:

- (a) केवल महिलाओं को समान अवसर।
- (b) मौजूदा प्रणाली को संशोधित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।
- (c) शिष्ट वर्ग के प्रति पक्षपात।
- (d) समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर।

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-I

Ans. (d) : संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख किया गया है, जिसका तात्पर्य समाज में किसी भी वर्ग के लिये बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता के तीन आयाम शामिल हैं—

- सामाजिक समानताएँ
- राजनीतिक समानताएँ
- आर्थिक समानताएँ

मौलिक अधिकार

94. मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

- (a) प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार मौलिक अधिकार दिए गए हैं।
- (b) मौलिक अधिकार हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं और हस्तांतरणीय अधिकार हैं।
- (c) मौलिक अधिकार उम्र पर आधारित हैं और हस्तांतरणीय अधिकार हैं।
- (d) मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है।

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-II

Ans. (d) : संविधान के भाग-III में अनुच्छेद 12 - 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। मूल अधिकार व्यक्ति को, राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार हैं। मूल अधिकार असीमित नहीं हैं राज्य द्वारा युक्ति-युक्त निर्बंधों के आधार पर इसको सीमित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर समस्त मूलाधिकार निलंबित किये जा सकते हैं। मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा दी गई है।

95. शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन-सा निषेध शामिल नहीं है?

- (a) बेगारी का निषेध
- (b) अस्पृश्यता का निषेध
- (c) 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध
- (d) तस्करी का निषेध

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-I

Ans. (b) : शोषण के विरुद्ध अधिकार में अस्पृश्यता का निषेध शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद-23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से सम्बन्धित हैं। अनुच्छेद-23 के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध तथा अनुच्छेद-24 में बाल श्रम (14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध) का प्रतिषेध किया गया है।

96. भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है "सूचित होना" या "प्रमाणित होना"?

- (a) उत्प्रेषण
- (b) निषेध
- (c) बंदी-प्रत्यक्षीकरण
- (d) अधिकार-पृच्छा

UPSSSC Junior Assistant Exam. 27-8-2023

Ans. (a) : भारतीय संविधान के अनुच्छेद-32 में 'संवैधानिक उपचारों का अधिकार' के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय (अनुच्छेद-226 के अंतर्गत) 5 प्रकार की रिट (याचिका) जारी करते हैं।

इसमें उत्प्रेषण (Certiorari) का शाब्दिक अर्थ है- 'प्रमाणित होना' या 'सूचित होना'। इस याचिका का उपयोग तब किया जाता है जब किसी मामले का स्थानांतरण जो निचली अदालत में लम्बित है या किसी वाद में निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की आवश्यकता होती है।

मौलिक कर्तव्य

97. मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख इसमें किया गया है:

- (a) भाग-IV-क
- (b) भाग-IV
- (c) भाग-III
- (d) अनुसूची-IV-A

UPSSSC Combined Technical Exam. 26-03-2023

Ans. (a) : भारतीय संविधान के भाग 4(क) के अन्तर्गत अनुच्छेद 51(क) में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। इन्हें रूस के संविधान से लिया गया है। प्रारंभ में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, इन्हें 42 वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। इनकी संख्या 10 थी। परन्तु पुनः 86 वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके अन्तर्गत 6-14 वर्ष के बच्चों को मौलिक शिक्षा प्रदान करवाना उनके माता-पिता तथा राज्य का कर्तव्य होगा। अतः वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है।

राज्य के नीति निर्देशक तत्व

98. निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियाँ बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए?

- (a) समाजवाद
- (b) मौलिक अधिकार
- (c) गांधीवादी सिद्धांत
- (d) राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-II

Ans. (d) : राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में उद्धृत सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य 'लोक-कल्याणकारी राज्य' की स्थापना करना है। जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिये नीति निर्देशक तत्वों को यथाशक्ति कर्तव्यित करना राज्य का कर्तव्य है। संविधान के भाग-4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है।

99. भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं?

- (a) यूक्रेन
- (b) आयरलैंड
- (c) कनाडा
- (d) यू.एस.ए.

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (b) : भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। सशक्त केंद्र की अवधारणा कनाडा के संविधान से तथा मूल अधिकार का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है।

संसद (राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/लोक सभा/राज्यसभा)

100. संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है?

- (a) 370 (b) 380
(c) 326 (d) 356

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-I

Ans. (d) : भारतीय संविधान के अनुच्छेद-356 के अनुसार किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। इस स्थिति में राज्य का नियंत्रण सीधे भारत के राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 20 जून, 1951 पेंसू (पंजाब) में लगा।

101. निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है ?

- (a) लोकसभा के निर्वाचित सदस्य
(b) राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य
(c) प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
(d) विधान परिषद् के निर्वाचित सदस्य

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (d) : भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में लोक सभा तथा राज्य सभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ-साथ राज्यों की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया जाता है जबकि राज्यों के विधान परिषद् के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल का भाग नहीं होते हैं।

102. निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद् से अलग करती है?

- (a) सदस्यों का नामांकन (b) अप्रत्यक्ष चुनाव
(c) सदस्यता का कार्यकाल (d) महाभियोग का शक्ति

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (d) : महाभियोग की शक्ति राज्य सभा को प्राप्त है जबकि राज्यों के विधान परिषद् को महाभियोग की शक्ति प्रदान नहीं है। यह विशेषता राज्य सभा को राज्यों की विधान परिषद् से अलग करती है। विकल्प में दी गई अन्य विशेषताएँ राज्य सभा तथा विधान परिषद् दोनों को प्राप्त हैं।

103. निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है, जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया?

- (a) हिंदू कोड विधेयक
(b) दहेज निषेध विधेयक
(c) पीईपीएसयू (PEPSU) विनियोग विधेयक
(d) भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)

Ans. (d) : भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 1986 को, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग कर, रोक दिया था। ज्ञानी जैल सिंह 1982-87 तक भारत के राष्ट्रपति थे।

संघीय कार्यपालिका

104. निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना तब उठाई जाती है जब एक संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्यवाही सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है?

- (a) दल बदलना (b) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
(c) व्यवस्था का प्रश्न (d) मंच पर चढ़ना

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-II

Ans. (c) : जब संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्यवाही सामान्य नियमों का पालन नहीं करती तब व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है, संसदीय प्रक्रिया में व्यवस्था का प्रश्न तब उठाया जाता है, जब कोई विचार-विमर्श करने वाली सभा बैठक में नियमों के उल्लंघन की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

● ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में प्रत्येक सदस्य को एक प्रश्न पूछने का अधिकार होता है, इनके द्वारा तत्काल महत्व के प्रश्नों पर एक घंटे की चर्चा की जा सकती है।

105. एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है?

- (a) 3 महीने (b) 6 महीने
(c) 9 महीने (d) 12 महीने

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-I)

Ans. (b) : बिना संसद सदस्य बने किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति अधिकतम 6 माह के लिए मंत्री नियुक्त कर सकता है। 6 माह बीत जाने पर यदि कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं बन पाता तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा।

राज्यपाल एवं राज्य की मंत्रिपरिषद्

106. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है?

- (a) अनुच्छेद 162 (b) अनुच्छेद 170
(c) अनुच्छेद 165 (d) अनुच्छेद 167

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (d) : भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। संविधान का अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार, अनुच्छेद 170 विधान सभाओं की संरचना तथा अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है।

107. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि "राज्यपाल विधान सभा को संबोधित कर सकते हैं; राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं?"

- (a) अनुच्छेद 165 (b) अनुच्छेद 176
(c) अनुच्छेद 175 (d) अनुच्छेद 164

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)

Ans. (c) : भारतीय संविधान के अनुच्छेद-175 में यह शामिल है की राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं तथा सदन को संदेश भेज सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण तथा अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध का प्रावधान करता है।

न्यायपालिका

108. भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन _____ को किया गया था। उद्घाटन संसद भवन (अब पुराना) में प्रिंसेस के चैंबर में हुआ था।

- (a) 26 जवनवरी, 1950 (b) 28 जवनवरी, 1950
(c) 25 जवनवरी, 1950 (d) 28 जवनवरी, 1948

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (d) : 28 जनवरी, 1950 को, भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के दो दिन बाद, सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन पुराने संसद भवन के चैंबर ऑफ प्रिंसेस में हुआ, जहाँ भारत का संघीय न्यायालय 1967 से 1950 तक 12 वर्षों तक बैठा था।

109. उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए, जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्रशासित प्रदेश पर है।

- (a) कलकत्ता उच्च न्यायालय (b) दिल्ली उच्च न्यायालय
(c) मद्रास उच्च न्यायालय (d) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-I)

Ans. (a) : कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गयी थी। इसका क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल राज्य के साथ-साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश पर भी है।

पंचायती राज

110. 'लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार' पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था?

- (a) राजेश पंत विशेषज्ञ समिति (b) बाधुल समिति
(c) शिवरामन समिति (d) एल.एम. सिंधवी समिति

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (d) : 'लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार' पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए वर्ष 1986 में एल.एम. सिंधवी समिति को नियुक्त किया गया था।

111. राजस्थान पहला राज्य था जहाँ वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था?

- (a) कोटा (b) जोधपुर
(c) नागौर (d) सिरोंही

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (c) : पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर, 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा किया गया था।

112. पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वाँ और 74वाँ संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया?

- (a) अक्टूबर, 1973 (b) नवंबर, 1952
(c) दिसंबर, 1992 (d) दिसंबर, 1973

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-I)

Ans. (c) : पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वाँ और 74वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम दिसम्बर, 1992 में पारित हुआ था जबकि इसे 24 अप्रैल, 1993 से लागू किया गया था।

113. निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है?

- (a) अनुच्छेद 243 (b) अनुच्छेद 324
(c) अनुच्छेद 124 (d) अनुच्छेद 73

UPSSSC Combined Technical Exam. 26-03-2023

Ans. (a) : 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा संविधान में एक नया भाग 'भाग-IX' जोड़ा गया, जिसके अन्तर्गत अनुच्छेद 243 से 243 (ण) तक पंचायती राज से संबंधित प्रावधान हैं। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नई अनुसूची (ग्यारहवीं अनुसूची) को भी जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों के 29 कार्यकारी विषय शामिल हैं।

- अनुच्छेद -324 का संबंध चुनाव आयोग के गठन तथा अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है।
- अनुच्छेद 73 संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार से संबंधित है।

संविधान संशोधन

114. भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधान सभाओं दोनों में एंग्लो-इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है?

- (a) 101वाँ संशोधन अधिनियम, 2019
(b) 100वाँ संशोधन अधिनियम, 2019
(c) 104वाँ संशोधन अधिनियम, 2019
(d) 107वाँ संशोधन अधिनियम, 2019

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (c) : भारतीय संविधान के 104 वें संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा एवं विधान सभाओं में एंग्लो-इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया गया तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया था।

संविधान के भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ

115. "अल्पसंख्यकों" के हितों की संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है?

- (a) अनुच्छेद 27 (b) अनुच्छेद 30
(c) अनुच्छेद 26 (d) अनुच्छेद 29

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-II

Ans. (d) : अनुच्छेद-29 'अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण' भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। किसी भी नागरिक को उसके धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।

- अनु. 27- किसी व्यक्ति को उसके धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय के प्रचार के लिए कोई कर या शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
- अनु. 28- राज्य (भारत का क्षेत्र) निधियों से पूर्णतः पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए।
- अनु. 30- शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों का अधिकार।

116. निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची की भाषा नहीं है?

- (a) तमिल (b) संस्कृत (c) अंग्रेजी (d) तेलुगू

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-II

Ans. (c) : भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हैं। संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं शामिल हैं:-

असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।

117. भारतीय संविधान की अनुसूची जो अनुसूचित भाषाओं के बारे में है, निम्नलिखित में से कौन-सी है?

- (a) आठवीं (b) छठी (c) दसवीं (d) नौवीं

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-I

Ans. (a) : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

118. कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है?

- (a) अनुच्छेद 15 (b) अनुच्छेद 18
(c) अनुच्छेद 21 (d) अनुच्छेद 9

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-II

Ans. (c) : भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा की रक्षा करता है। मेनका गाँधी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि, विदेश यात्रा का अधिकार एक महत्वपूर्ण बुनियादी मानव अधिकार है क्योंकि यह व्यक्ति के स्वतंत्र और आत्मनिर्णय रचनात्मक चरित्र का पोषण करता है।

119. हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत "विवाह के असुधार्य विच्छेद" के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है?

- (a) अनुच्छेद-141 (b) अनुच्छेद-130
(c) अनुच्छेद-148 (d) अनुच्छेद-142

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-I

Ans. (d) : हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद-142(1) के तहत शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (2023) के मामले में 'विवाह के असुधार्य विच्छेद' के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है।

120. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है?

- (a) अनुच्छेद-326 (b) अनुच्छेद-333
(c) अनुच्छेद-330 (d) अनुच्छेद-338

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-I

Ans. (d) : भारतीय संविधान का अनुच्छेद-338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। इस आयोग में एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष व तीन अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इनकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किये जाते हैं। नियमानुसार, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है।

121. भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है?

- (a) 10वीं अनुसूची (b) 8वीं अनुसूची
(c) 9वीं अनुसूची (d) 11वीं अनुसूची

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-I

Ans. (d) : भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के लिये 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायतीराज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

122. किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है?

- (a) अनुच्छेद 356 (b) अनुच्छेद 359
(c) अनुच्छेद 344 (d) अनुच्छेद 345

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (b) : संविधान के अनुच्छेद-359 के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध करता है। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति तथा अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा से संबंधित है।

123. निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है, जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है?

- (a) पशुधन (b) पशुपालन
(c) साइबर कानून (d) व्यापार और वाणिज्य

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)

Ans. (c) : संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची नामक तीन सूचियाँ दी गयी हैं। जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं सम्मिलित हैं वे विषय अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। दिये गये विकल्पों में साइबर कानून एक अवशिष्ट विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है।

राष्ट्रीय प्रतीक

124. भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में एक वृत्ताकार अबेकस पर चार शेर एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। अबेकस के चित्रवल्ली में चार अलग-अलग जानवरों की मूर्तियाँ हैं जिन्हें धर्म चक्रों के बीच से अलग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अबेकस के चित्रवल्ली का हिस्सा नहीं है?

- (a) बाघ (b) बैल (c) हाथी (d) दौड़ता हुआ घोड़ा

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-II

Ans. (a) : उत्तर प्रदेश के सारनाथ (वाराणसी) स्थित अशोक स्तम्भ को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मान्यता मिली थी। अशोक चक्र में 24 तीलियाँ हैं, इनको धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रीय झंडे के नीचे वाली पट्टी में चार पशु जिनमें हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह बने हैं।

विविध

125. देश में किन कानूनों की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया था?

- (a) पर्यावरण संबंधी कानून
(b) जनसंख्या संबंधी कानून
(c) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा
(d) पश्चिमी घाट से संबंधित कानून

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-II

Ans. (a) : सुब्रमण्यम समिति का गठन अगस्त, 2014 में टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में किया गया था। इसका गठन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत में पर्यावरण कानूनों की समीक्षा करने के साथ-साथ उन्हें वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप लाने के लिये किया गया था। इस समिति ने 18 नवंबर, 2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

126. स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे?

- (a) टी. स्वामीनाथन (b) सुकुमार सेन
(c) आर.के. त्रिवेदी (d) डॉ. एम.एस. गिल

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)

Ans. (b) : स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। इनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसम्बर, 1958 तक था।

127. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम, 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए?

- (a) धारा 100 (b) धारा 101 (c) धारा 135 (d) धारा 130

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-I)

Ans. (a) : भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 100 के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाये।

128. निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और 'ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस काम किया जाए'?

- (a) सरदार वल्लभभाई पटेल (b) सी. राजगोपालाचारी
(c) अब्दुर निश्तार (d) सोमनाथ लाहिड़ी

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-I)

Ans. (d) : सोमनाथ लाहिड़ी ने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और “ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किए जाए।”

129. भारत में, “मानहानि” को आई.पी.सी (भारतीय दंड संहिता) की किस धारा में परिभाषित किया गया है?

- (a) धारा 499 (b) धारा 400
(c) धारा 419 (d) धारा 349

UPSSSC Junior Assistant Exam. 27-8-2023

Ans. (a) : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 499 में व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा के प्रावधान हैं। धारा 499 के अनुसार, “किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना, टिप्पणी करना, व्यक्ति के मान-सम्मान के विरुद्ध छपवाना मानहानि माना जाता है।” इसमें धारा 500 के तहत मानहानि के लिए अधिकतम दो वर्ष के कारावास का प्रावधान है।

भाग-3 : भूगोल

विश्व का भूगोल

ब्रह्माण्ड

130. शब्द “शांति का समुद्र” (सी ऑफ ट्रैक्विलिटी) निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड से जुड़ा है?

- (a) सूर्य (b) बृहस्पति
(c) चाँद (d) मंगल

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-I

Ans. (c) : शब्द “शांति का समुद्र” (सी ऑफ ट्रैक्विलिटी) चंद्रमा से सम्बन्धित है। यह सागर चन्द्रमा के ट्रैक्विलेटिस बेसिन में पाया जाता है और यह बेसाल्ट से बना है। यह चन्द्रमा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक अंधेरा स्थान है। यह चाँद पर कम ऊँचाई वाला मैदान है जो पानी और धूल से भरा है।

131. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन बृहस्पति ग्रह के बारे में सही है?

- (a) बृहस्पति सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है।
(b) इसके केवल दो चंद्रमा हैं।
(c) सौर मंडल में सबसे छोटा दिन इसका है।
(d) यह एक ऐसा ग्रह है जिसमें कोई गैस नहीं है।

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-I

Ans. (c) : हमारे सौर मण्डल में आठ ग्रह हैं। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा तथा सबसे भारी ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में पांचवाँ है। यह मुख्य रूप से एक गैसीय पिंड है। गैनिमीड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके अन्य उपग्रह (यूरोपा, कैलिस्टो आदि। बृहस्पति के कुल लगभग 92 उपग्रह ज्ञात हैं। सौर मण्डल का सबसे छोटा दिन इस ग्रह का है।

132. ग्रहण के समय सूर्य का निम्न में से कौन-सा भाग दिखाई देता है?

- (a) फोटोस्फीयर (b) कोरोना
(c) क्रोमोस्फीयर (d) कोर

UPSSSC Combined Technical Exam. 26-03-2023

Ans. (b) : सूर्य के धरातल से ऊपर के आवरण को तीन मण्डलों (फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर तथा कोरोना) में बाँटा गया है। ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना भाग दिखाई देता है। यह सूर्य के वायुमण्डल

का सबसे बाहरी आवरण है, जो क्रोमोस्फीयर के ऊपर पाया जाता है। यह आवरण कमजोर गैसों से बना है, जो सूर्य के प्रकाशमण्डल के उज्ज्वल प्रकाश से अभिभूत होता है। जब ग्रहण के दौरान चंद्रमा, सूर्य के चेहरे को अवरुद्ध करता है, तो सूर्य के चारों ओर सफेद मोती प्रभामंडल के रूप में कोरोना दिखाई देता है।

सौरमण्डल

बृहस्पति/चन्द्रमा

133. हानिकारक यूवी-पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें ओजोन परत मौजूद है?

- (a) समताप मंडल (b) तापमंडल
(c) क्षोभमंडल (d) मध्यमंडल

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-I

Ans. (a) : ओजोन परत वस्तुतः ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से बनी एक गैसीय परत है। समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी परत है, जो क्षोभमंडल के ऊपर स्थित है। समताप मंडल का विस्तार 16-50 किमी. की ऊँचाई तक है। इसमें ओजोन परत पाई जाती है जिसे पृथ्वी का कवच कहते हैं। ये सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सतह को बचाती है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन परत को नष्ट करने वाले क्लोरोफ्लोरो कार्बन (CFC) को रोकने के लिए 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता किया गया।

134. निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह खोजें:

- (a) बुध (b) पृथ्वी
(c) यूरेनस (d) मंगल

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-II

Ans. (c) : बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जोवियन ग्रह या गैसीय विशालकाय ग्रह कहा जाता है। इनमें वायुमंडल की मोटी परत पायी जाती है जिसमें ज्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन गैस होती है।

135. जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय हैं, वह है:

- (a) बृहस्पति (b) यूरेनस (c) नेपच्यून (d) शनि

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-I

Ans. (d) : शनि ग्रह पर सबसे अधिक वलयों की संख्या है। शनि सूर्य से छठा ग्रह है और हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके वायुमण्डल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैसें पायी जाती हैं। इस कारण इसे ‘गैसों का गोला’ भी कहते हैं।

136. निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है?

- (a) मेकमेक (b) सेरेस (c) प्लूटो (d) हौमिया

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-I)

Ans. (b) : सेरेस आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। यह क्षुद्रग्रह का पहला सदस्य था जिसे 1801 में ग्यूसेप पियाजी द्वारा देखा गया था, इसके तहत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह शामिल किया जाता है। इसका व्यास लगभग 950 किमी. जो पृथ्वी के चन्द्रमा के एक-चौथाई से भी अधिक है वैज्ञानिकों ने 2006 में इसे बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

पृथ्वी

137. मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है

- (a) वॉटर बेड (b) वॉटर लेवल
(c) वॉटर टेबल (d) वॉटर लेयर

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)

Ans. (c) : मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा को वॉटर लेवल कहते हैं। इसी जल को विभिन्न माध्यमों से ऊपर खींचकर मानव द्वारा उपयोग में लाया जाता है।

महासागर एवं महासागरीय धाराएँ

138. निम्नलिखित में से कौन-सा पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है?

- (a) मारियाना ट्रेंच (b) प्रशांत महासागर
(c) मृत सागर (d) लाल सागर

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-I

Ans. (a) : पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिन्दु मारियाना गर्त है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित दुनिया का सबसे गहरा प्राकृतिक गर्त है। मारियाना गर्त की गहराई लगभग 11,034 मी. है।

139. उस जलडमरूमध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिन्द महासागर से जोड़ता है।

- (a) फॉर्मोसा जलडमरूमध्य (b) बोस्फोरस जलडमरूमध्य
(c) सुंडा जलडमरूमध्य (d) मलक्का जलडमरूमध्य

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)

Ans. (c) : सुंडा जलडमरूमध्य, जावा सागर को हिन्द महासागर से जोड़ता है। यह इण्डोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच की जलसंधि है।

140. अल-नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर तीन से सात में एक बार दिखाई देती है। यहाँ “अल-नीनो” शब्द का क्या अर्थ है?

- (a) शुभ वर्षा-ऋतु (b) बाल मसीह (चाइल्ड क्राइस्ट)
(c) प्रारंभिक वर्षा-ऋतु (d) बाल वर्षा-ऋतु

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)

Ans. (b) : अल-नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर तीन से सात में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल-नीनो शब्द का अर्थ बाल मसीह है यह गर्म जलधारा है। अल-नीनो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप में तापन की स्थिति को दर्शाता है। यह घटना ला-नीना की तुलना में अधिक बार होती है।

पर्वत/पठार/मरुस्थल/मैदान

141. निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर (820 फीट) तक ऊँचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है?

- (a) नामीब रेगिस्तान (b) सोनोरा रेगिस्तान
(c) अटाकामा रेगिस्तान (d) रब अल खली रेगिस्तान

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)

Ans. (d) : रब अली खली रेगिस्तान में 250 मीटर (820 फीट) तक ऊँचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है यह दक्षिणी अरब प्रायद्वीप में स्थित है। जिसमें सऊदी अरब का अधिकार क्षेत्रफल ओमान, संयुक्त अरब अमीरात व यमन के कुछ भाग शामिल हैं।

झील, जलप्रपात

142. निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है?

- (a) ग्रेट साल्ट लेक (b) पुलिकट
(c) सांभर (d) गेटाले तालाब

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-II

Ans. (d) : गेटाले तालाब पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे लवणीय जल निकाय है। यह इथियोपिया में स्थित है। जिसमें वजन के हिसाब से लवणता का प्रतिशत 43.3% है, जबकि अंटार्कटिका में डॉन जुआन तालाब झील में 40.2%, मृत सागर में 23.1% औसतन है।

143. “लेक तुर्काना” दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है?

- (a) संयुक्त अरब अमीरात (b) तुर्किए
(c) केन्या (d) ओमान

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (c) : “लेक तुर्काना” दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, यह दुनिया चार देशों में विस्तारित होती है। जिसमें इथियोपिया, केन्या, दक्षिण सूडान और युगांडा है। यह ओमो-तुरकाना बेसिन का हिस्सा है।

विश्व के प्रमुख देश/राजधानी/मुद्रा

144. “रेक्याविक” निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है?

- (a) आइसलैंड (b) स्वीडन (c) नीदरलैंड (d) लातविया

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-II

Ans. (a) : रेक्याविक आइसलैंड की राजधानी है, यह विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी है, यह नगर आर्कटिक वृत्त के अंदर है, यहाँ सर्दियों में 4 घंटे धूप निकलती और गर्मियों में मध्यरात्रि तक सूरज निकलता है।

देश का नाम	राजधानी
नीदरलैंड	एमस्टर्डम
स्वीडन	स्टॉकहोम
लातविया	रिगा

145. निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानियों से सुमेलित कीजिए :

A.	जाम्बिया	1.	हवाना
B.	क्यूबा	2.	मनामा
C.	रवांडा	3.	लुसाका
D.	बहरीन	4.	किगाली

कूट :

	A	B	C	D		A	B	C	D
(a)	4	1	2	3	(b)	2	4	1	3
(c)	3	1	4	2	(d)	2	4	3	1

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (c) : सही सुमेलन इस प्रकार है—

A.	जाम्बिया	-	लुसाका
B.	क्यूबा	-	हवाना
C.	रवांडा	-	किगाली
D.	बहरीन	-	मनामा

परिवहन

146. निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है?

- (a) निकोसिया (b) आक्रा (c) मोरोनी (d) हरारे

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (c) : कोमोसोम संघ की राजधानी मोरोनी है। निकोसिया, साइप्रस की राजधानी, आक्रा, घाना की तथा हरारे, जिम्बाब्वे की राजधानी है।

विविध

147. कुछ स्थानों पर भूजल, जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है?

- (a) गीजर/उष्णोत्स (b) रिसा हुआ जल
(c) जलभृत (d) गर्म झरना

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (c) : कुछ स्थानों पर भू-जल, जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है। इसे जलभृत नाम से जाना जाता है। जलभृत जल स्तर के नीचे एक संतृप्त क्षेत्र होता है, भू-जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भू-जल को जलभृत कहा जाता है।

148. निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है?

- (a) बाँस का पेड़ (b) सिनकोना का पेड़
(c) नीलगिरि का पेड़ (d) जिन्कगो का पेड़

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (b) : मलेरिया के इलाज के लिए सिनकोना का पेड़ की दवा प्रदान की जाती है। इसके छाल का उपयोग कर उपचार किया जाता है। यह आमतौर पर केरल में प्राप्त होता है।

भारत का भूगोल

भौगोलिक स्थिति

149. भारत का कौन-सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है?

- (a) अरुणाचल प्रदेश (b) तेलंगाना
(c) पश्चिम बंगाल (d) सिक्किम

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-I

Ans. (b) : भारत का तेलंगाना राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है। भारत में लगभग 15,200 किमी. लंबी स्थलीय सीमा है जो केंद्र शासित प्रदेशों सहित 18 राज्यों से गुजरती है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा 7 विभिन्न देशों के साथ साझा करता है।

पठार, पर्वत

150. “कुद्रेमुख” जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊँची चोटी है जो चिक्कमगलुरु जिले में स्थित है, यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है, निम्नलिखित में से वह कौन-सा जानवर है?

- (a) शेर (b) हिरण
(c) घोड़ा (d) हाथी

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-I

Ans. (c) : कुद्रेमुख चोटी कर्नाटक राज्य के चिक्कमगलुरु जिले में स्थित राज्य की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। इस चोटी का आकार ‘घोड़े के मुख’ के समान है। ‘कुद्रेमुख’ शब्द का अर्थ ही ‘घोड़े का मुख’ होता है।

151. निम्नलिखित में से किस पर्वत को ‘हाथी पर्वत’ के रूप में भी जाना जाता है जो मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक शृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है?

- (a) अनामला या अनामलाई (b) कनुर
(c) येलागिरी (d) वालपराई

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-I

Ans. (a) : दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल राज्यों की सीमा पर स्थित अनामलाई (अनामला) पर्वत को ‘हाथी पर्वत’ के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के पश्चिमी घाट का ही दक्षिणी विस्तार है जो कि तीन पहाड़ियों की शृंखला पर स्थित है। यहां से दक्षिण की ओर इलाइची की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अनामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर-पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियों का विस्तार है।

• दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी (2695 मी.) इसी पर्वत पर स्थित है।

152. निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊँची चोटी है जो समृद्ध जैव-विविधता के साथ यूनेस्को-विश्व विरासत स्थल भी है?

- (a) अनामुडी (b) कोलारीबेट्टा
(c) कोडाचदी (d) मीसापुलिमाला

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-II

Ans. (a) : अनामुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊँची चोटी है जो समुद्र जैव-विविधता के साथ यूनेस्को-विश्व विरासत स्थल भी है। ध्यातव्य है कि अनामुडी चोटी अन्नामलाई शृंखला में स्थित है। यह चोटी केरल के एर्नाकुलम जिला और इडुक्की जिले में स्थित है।

153. निम्नलिखित में से कौन-सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है?

- (a) प्लूटोनिक चट्टान (b) कायांतरित चट्टान
(c) तलछटी चट्टान (d) आग्नेय चट्टान

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-I

Ans. (b) : ‘Metamorphic’ शब्द का अर्थ है ‘रूप का परिवर्तन’। कायांतरित चट्टान (रूपान्तरित चट्टान) अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है। उच्च तापमान और दबाव के साथ टेक्टोनिक गतिविधियों से होने वाली विकृति के कारण चट्टानें पुनर्क्रिस्टलीकरण से गुजरती हैं। नीस, साइनाइट, स्लेट, शिस्ट, मार्बल, क्वार्ट्जाइट आदि रूपान्तरित चट्टानों के उदाहरण हैं।

154. सह्याद्रि पर्वत शृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएँ जिसे “दी ईगल्स नेस्ट” के नाम से जाना जाता है।

- (a) कासा किला (b) शिवनेरी किला
(c) रंगाना किला (d) तोरणा किला

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (d) : सह्याद्रि पर्वत शृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम शिवनेरी किला जिसे “दी ईगल्स नेस्ट” के नाम से जाना जाता है। यह पर्वत शृंखला पश्चिमी घाट भी कहते हैं। यह भारतीय राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है।

155. हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लायी गयी असंगठित तलछट से बना है?

- (a) शिवालिक श्रेणी (रेंज) (b) असम हिमालय
(c) पूर्वांचल श्रेणी (रेंज) (d) कुमाऊँ हिमालय

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)

Ans. (a) : हिमालय का शिवालिक श्रेणी से नदियों द्वारा लायी गयी असंगठित तलछट से बना है। यह हिमालय दक्षिणी श्रेणी है।

156. “उड़िया पठार” भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?

- (a) राजस्थान (b) मध्य प्रदेश
(c) कर्नाटक (d) महाराष्ट्र

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-I)

Ans. (a) : “उड़िया पठार” भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। यह इस राज्य का सबसे ऊँचा पठार है। यह राजस्थान के सिरोंही जिले की माऊंट आबू नामक स्थान पर स्थित है।

157. भारत में स्थित उस-पर्वतीय चोटी का नाम बताएँ जिसे “महान बर्फ के पाँच खजाने” के रूप में जाना जाता है, पाँच खजाने पाँच भंडार : सोना, चाँदी, रत्न, अनाज और भगवान की पवित्र पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- (a) धौलागिरि (b) नंदा देवी (c) कामेत (d) कंचनजंगा

UPSSSC Junior Assistant Exam. 27-8-2023

Ans. (d) : भारत-नेपाल सीमा पर कंचनजंगा पर्वत 8586 मी. ऊँचा पर्वत है। यह सोना, चाँदी, मोती, अनाज और पवित्र पुस्तकों का भण्डार है। जिसके कारण इसे 'बर्फ के पाँच खजाने' वाला पर्वत कहा जाता है।

158. हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

- (a) ज्वालामुखी पर्वत (b) अवशिष्ट पर्वत
(c) ब्लॉक पर्वत (d) वलित पर्वत

UPSSSC Combined Technical Exam. 26-03-2023

Ans. (d) : सेनोजोइक महाकल्प के टर्शियरी युग में भारतीय, और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से उत्पन्न संपीडन बल के द्वारा वलन की प्रक्रिया से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। अतः यह वलित पर्वत प्रणाली से संबंधित है। इसका विस्तार भारत-पाकिस्तान सीमा से लेकर भारत-म्यांमार सीमा तक लगभग 2500 कि.मी. है। इस पर्वत शृंखला में विश्व की सबसे ऊँची चोटी माउण्ट एवरेस्ट (8848 मी0) तथा विश्व का सबसे गहरा गार्ज बुंजी (5200 मी0) स्थित है।

दर

159. कुल्लू घाटी को — के नाम से भी जाना जाता है।

- (a) बर्फ की घाटी (b) देवदार की घाटी
(c) देवताओं की घाटी (d) फूलों की घाटी

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-II

Ans. (c) : कुल्लू घाटी को "देवताओं की घाटी" के नाम से भी जाना जाता है। यह घाटी हिमाचल प्रदेश में हिमालय और व्यास नदी के बीच स्थित है।

फूलों की घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले में स्थित है। 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इस घाटी को शामिल कर लिया गया है।

160. बारा-लाचा ला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जोड़ता है?

- (a) हिमाचल प्रदेश और लद्दाख
(b) पंजाब और हिमाचल प्रदेश
(c) उत्तराखंड और लद्दाख
(d) हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-I

Ans. (a) : बारा-लाचा ला दर्रा लाहौल स्पीति जिले (हिमाचल प्रदेश) को लेह (लद्दाख) से जोड़ता है। यह दर्रा मनाली-लेह मार्ग का प्रमुख दर्रा है।

161. "पांगी घाटी" भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है?

- (a) उत्तराखंड (b) हिमाचल प्रदेश
(c) जम्मू और कश्मीर (d) लद्दाख

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (b) : "पांगी घाटी" भारत के हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है इसी घाटी से चंद्रभागा नदी निकलती है।

झील, जलप्रपात

162. निम्नलिखित झीलों में से कौन-सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है?

- (a) पुलिकट (b) डल (c) कौसर (d) वुलर

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-I

Ans. (d) : वुलर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तथा यह झील एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है।

163. मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है?

- (a) जम्मू और कश्मीर (b) हिमाचल प्रदेश
(c) लद्दाख (d) उत्तराखंड

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (d) : मिलम ग्लेशियर उत्तराखण्ड के पिथौरागढ़ जिले की मुनस्यारी तहसील में स्थित है। यह कुमाऊँ हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है।

164. निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय जलप्रपातों और उनसे संबंधित राज्यों का मिलान करें :

- (i) मैगोड — (a) केरल
(ii) नोहकलिकाई — (b) तमिलनाडु
(iii) मीनमुट्री — (c) मेघालय
(iv) थलैयार — (d) कर्नाटक
(a) (i)-(c), (ii)-(d), (iii)-(a), (iv)-(b)
(b) (i)-(c), (ii)-(a), (iii)-(d), (iv)-(b)
(c) (i)-(d), (ii)-(c), (iii)-(a), (iv)-(b)
(d) (i)-(d), (ii)-(c), (iii)-(b), (iv)-(a)

UPSSSC Junior Assistant Exam. 27-8-2023

Ans. (c) :

जल प्रपात	राज्य
मैगोड	कर्नाटक
नोहकलिकाई	मेघालय
कल्लार मीनमुट्री	केरल
थलैयार	तमिलनाडु

अपवाह तंत्र

165. गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से संबंधित है?

- (a) सिंधु (b) गंगा
(c) ब्रह्मपुत्र (d) गोदावरी

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-II

Ans. (b) : गंडक नदी नेपाल सीमा के पास तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर में मुख्य समुद्र तल से लगभग 7620 मीटर की ऊँचाई से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली यह नदी 630 किलोमीटर तक विस्तृत है, जिसमें भारत में इसका विस्तार क्षेत्र 445 किलोमीटर और नेपाल में 185 किलोमीटर है। गंडक नदी को नेपाल में गंडकी और नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहती है तथा हाजीपुर के निचले भाग में पटना के पास गंगा में जाकर मिलती है।

166. निम्नलिखित में से किस नदी को 'बंगाल' का शोक के रूप में जाना जाता है?

- (a) कोसी नदी (b) महानदी नदी
(c) दामोदर नदी (d) गोदावरी नदी

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-II

Ans. (c) : दामोदर नदी को 'बंगाल का शोक' के रूप में जाना जाता है। दामोदर नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी है। यह झारखण्ड और पश्चिम बंगाल से होकर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। इस नदी का उद्गम झारखण्ड के छोटा नागपुर पहाड़ियों से होता है।

167. निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है?

- (a) मध्य प्रदेश (b) गोवा
(c) असम (d) केरल

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-I

Ans. (c) : असम राज्य में स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली शब्द 'MAJULI' से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'पानी से घिरा हुआ क्षेत्र'। माजुली द्वीप वैष्णव संस्कृति का मुख्य केन्द्र है।

168. निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करें जिनमें वे बहती हैं:

- | | |
|-------------|----------------|
| (i) कामेंग | (a) ओडिशा |
| (ii) बैतरणी | (b) महाराष्ट्र |
| (iii) गिरना | (c) छत्तीसगढ़ |
| (iv) हसदेव | (d) असम |
- (a) (i)-(d), (ii)-(c), (iii)-(b), (iv)-(a)
 (b) (i)-(b), (ii)-(a), (iii)-(d), (iv)-(c)
 (c) (i)-(d), (ii)-(a), (iii)-(b), (iv)-(c)
 (d) (i)-(b), (ii)-(c), (iii)-(c), (iv)-(d)

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (c) : सही सुमेलन इस प्रकार है—

कामेंग	-	असम
बैतरणी	-	ओडिशा
गिरना	-	महाराष्ट्र
हसदेव	-	छत्तीसगढ़

नदी घाटी परियोजनाएँ

169. निम्नलिखित में से कौन सा बाँध और नदी के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता है?

- (a) धरोई बाँध- माही नदी (b) उकाई परियोजना- तापी नदी
 (c) नाथपा झाकरी- सतलज (d) नागार्जुन सागर- कृष्णा नदी

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-II

Ans. (a) : बाँध	नदी
धरोई बाँध	साबरमती नदी
उकाई परियोजना	तापी नदी
नाथपा झाकरी	सतलज
नागार्जुन सागर	कृष्णा नदी

170. सलाल परियोजना _____ नदी पर है।

- (a) चिनाब (b) झेलम
 (c) रावी (d) सतलज

UPSSSC Combined Technical Exam. 26-03-2023

Ans. (a) : सलाल परियोजना, जम्मू-कश्मीर राज्य के रियासी जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। इसकी क्षमता 690 मेगावट है। यह सिंधु जल समझौते के तहत जम्मू-कश्मीर में भारत द्वारा निर्मित पहली पनबिजली परियोजना है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर बागलिहार बाँध तथा दुलहस्ती बाँध स्थित है।

- जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है।
- हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर चमेरा परियोजना।
- सतलुज नदी पर कोल बाँध, भाखड़ा नांगल बाँध, बास्पा जलविद्युत परियोजना तथा नाथपा झाकड़ी परियोजना स्थित है।

जलवायु

171. शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है?

- (a) उत्तर-पूर्वी वर्षा ऋतु (मानसून)
 (b) स्थानीय वायु परिसंचरण
 (c) शीतोष्ण चक्रवात
 (d) दक्षिण-पश्चिम वर्षा ऋतु (मानसून)

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-I)

Ans. (a) : शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा उत्तर-पूर्वी वर्षा ऋतु के कारण होता है। यह भारत में अक्टूबर-नवम्बर में मानसून के लौटने के साथ ही मानसून के चलने की दिशा दक्षिण की ओर हो जाती है। इन लौटती हुई मानसूनी पवनों से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल आदि राज्यों में शीत कालीन वर्षा होती है।

मिट्टी

172. निम्नलिखित में से भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र है :

- (a) ब्रह्मपुत्र घाटी (b) सिंधु-गंगा घाटी
 (c) दक्कन का पठार (d) कच्छ का रण

UPSSSC Combined Technical Exam. 26-03-2023

Ans. (c) : भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र दक्कन का पठार है, क्योंकि यह क्षेत्र लावा मिट्टी से बना है। काली मृदा, जिसे रेगुर मृदा या काली कपास मृदा भी कहा जाता है, कपास के उत्पादन के लिए आदर्श है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस व जैव तत्वों की मात्रा कम होती है तथा पोटेश, एल्युमीनियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। कपास के अतिरिक्त यह मृदा गन्ना, गेहूँ और प्याज की खेती के लिए अनुकूल है तथा उत्तर प्रदेश में इस मिट्टी को 'करेल' की संज्ञा दी जाती है।

वन, वन्यजीव, वनस्पतियाँ

173. दलमा अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?

- (a) छत्तीसगढ़ (b) असम
 (c) झारखंड (d) तेलंगाना

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-I

Ans. (c) : दलमा वन्यजीव अभयारण्य झारखण्ड राज्य में स्थित है। यह अभयारण्य हाथियों के लिए स्वर्ग है।

174. निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था?

- (a) सर एच.जी. चैंपियन (b) जादव पायेंग
 (c) डिट्रिच ब्रैंडिस (d) ई.पी.स्टीबिंग

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (a) : सर एच.जी. चैंपियन द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था। वर्ष 1968 में चैंपियन एवं एस.के. सेठ ने मिलकर स्वतंत्र भारत के लिए इसे पुनः प्रकाशित किया। यह वर्गीकरण पौधों की संरचना, आकृति विज्ञान और पादपी स्वरूप पर आधारित है। इस वर्गीकरण में वनों को 16 मुख्य वर्गों में विभाजित कर उपवर्गों में बाँटा गया है।

175. शिरुई (सिरोय) कुमुदिनी/लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदिनी/लिली है?

- (a) असम (b) पश्चिम बंगाल
 (c) मणिपुर (d) त्रिपुरा

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-I)

Ans. (c) : शिरुई (सिरोय) कुमुदिनी/लिली भारत के मणिपुर के एकमात्र स्थलीय कुमुदिनी लिली है। यह शिरुई पहाड़ियों से प्राप्त होती है। यह मणिपुर का राज्य पुष्प भी है।

खनिज संसाधन/उद्योग

176. निम्नलिखित में से किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है?

- (a) कानपुर (b) रांची
 (c) झरिया (d) लोहरदगा

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-I

Ans. (c) : झरिया पूरे झारखण्ड के कोयले का लगभग 60% भाग उत्पादित करता है। झरिया में उत्तम किस्म का कोकिंग कोल पाया जाता है। झारखण्ड में कोयले का खनन दामोदर घाटी, सोन घाटी तथा राजमहल क्षेत्रों में होता है।

177. भारत में “नूनमती” स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है?

- (a) कपड़ा उद्योग (b) प्लास्टिक उद्योग
(c) नमक उद्योग (d) पेट्रोलियम उद्योग

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-I

Ans. (d) : नूनमती एक औद्योगिक स्थल है जो कि असम राज्य में स्थित है। यह पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा पहला तेल शोधन कारखाना 1 जनवरी 1962 को स्थापित किया गया था।

178. 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड (प्रतिवेदित) खदानें हैं, इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं?

- (a) मध्य प्रदेश (b) कर्नाटक
(c) झारखंड (d) छत्तीसगढ़

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (b) : 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड (प्रतिवेदित) खदानें हैं, इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। खनिज मूल्य में हिसाब से राजस्थान पहले तथा दूसरे नंबर पर ओडिशा है।

179. निम्नलिखित में से किसे “भूरा (ब्राउन) कोयला” भी कहा जाता है?

- (a) एन्थ्रेससाइट (b) लिग्नाइट
(c) कोक (d) सब-बिटुमिनस

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)

Ans. (b) : लिग्नाइट के भूरा कोयला कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 25-35% होती है। कोयला को चार प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया गया है। जिसमें सर्वोच्च प्रकार का कोयला एन्थ्रेससाइट है।

180. राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है?

- (a) राखी ग्रीन ग्रेनाइट (b) मेरी गोल्ड ग्रेनाइट
(c) काला ग्रेनाइट (d) रोजी पिंग (गुलाबी) ग्रेनाइट

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-I)

Ans. (d) : राजस्थान के जालौर जिले में रोजी पिंग (गुलाबी) ग्रेनाइट पाया जाता है। यह भारत में उपलब्ध सबसे सस्ते ग्रेनाइट में से एक है और इसका उपयोग फर्श और काउंटर बनाने के लिए बहुतायत मात्रा में किया जाता है। इसे तुर्की और यूरोप जैसे देशों में निर्यात भी किया जाता है।

181. “कोसा सिल्क” जो एक भारतीय रेशमकीट एंथेरिया माइलिटा के कोया से प्राप्त होता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है?

- (a) तमिलनाडु (b) आंध्र प्रदेश
(c) तेलंगाना (d) छत्तीसगढ़

UPSSSC Junior Assistant Exam. 27-8-2023

Ans. (d) : कोसा रेशम एंथेरिया माइलिटा नामक रेशमकीट से प्राप्त किया जाता है जब ये अर्जुन, साल और साजा के पेड़ों पर अपना कोकून बनाते हैं। यह छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष रूप से, कोरबा व चम्पा शहर में पाया जाता है।

परिवहन

वायु परिवहन

182. निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को “ दीनदयाल बंदरगाह ” के नाम से भी जाना जाता है?

- (a) तूतीकोरिन बंदरगाह (b) पारादीप बंदरगाह
(c) हल्दिया बंदरगाह (d) कांडला बंदरगाह

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-II

Ans. (d) : कांडला बंदरगाह को ‘दीनदयाल बंदरगाह’ के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित कर ‘दीनदयाल बंदरगाह’ कर दिया गया। यह भारत के पश्चिम तट का एक बड़ा बंदरगाह है। इसका पूरा नियंत्रण भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय के हाथ में है।

राज्य की राजधानी, भाषा, जनजाति

183. मिशमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है?

- (a) मणिपुर (b) अरुणाचल प्रदेश
(c) कर्नाटक (d) ओडिशा

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-I

Ans. (b) : मिशमी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। अबोर, डफला, गैलोंग, खम्पटी, मोनपा अरुणाचल प्रदेश में निवास करने वाली अन्य जनजातियाँ हैं।

184. गारो और खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषाएँ हैं?

- (a) मेघालय (b) झारखंड
(c) आंध्र प्रदेश (d) छत्तीसगढ़

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-I

Ans. (a) : गारो और खासी मेघालय राज्य की सहयोगी राजभाषाएँ हैं। अंग्रेजी का प्रयोग मेघालय की आधिकारिक भाषा के रूप में किया जाता है। मेघालय में बोली जाने वाली गारो और खासी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है।

185. राज्य और उसके राज्य पक्षी के संबंध में सही जोड़ी का पता लगाएँ।

- (a) महाराष्ट्र-पीले पैरों वाला हरा कबूतर (हरियल)
(b) सिक्किम-ग्रेटर फ्लेमिंगो (बड़ा राजहंस)
(c) गुजरात-ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (सोन चिरैया, गोडावण)
(d) राजस्थान-ब्लड फीजेंट (चिल्मिआ)

UPSSSC Junior Assistant Exam. 27-8-2023

Ans. (a) :

राज्य	राजकीय पक्षी
महाराष्ट्र	पीले पैरों वाला हरा कबूतर (हरियल)
सिक्किम	ब्लड फीजेंट (चिल्मिआ)
गुजरात	ग्रेटर फ्लेमिंगो (बड़ा राजहंस)
राजस्थान	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (सोन चिरैया)

प्रमुख शहर

186. निम्न में से कौन कवरत्ती के लिए सही है?

- (a) यह अपने प्राचीन सफेद रेत समुद्र तटों और शांत लैगून के लिए प्रसिद्ध है।
(b) कवरत्ती की जलवायु भूमध्यसागरीय प्रकार की है।
(c) कवरत्ती की जलवायु पश्चिम बंगाल की जलवायु परिस्थितियों के समान है।
(d) यह अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह की राजधानी है।

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-II

Ans. (a) : लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती एक द्वीपीय शहर है, जो उस एटोल का नाम है जिस पर शहर खड़ा है। यह अपने प्राचीन सफेद रेत, समुद्र तटों और शांत लैगून के लिए जाना जाता है, जो इसे लोक-प्रिय पर्यटन स्थल बनाता है।

187. भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है?

- (a) अंग्रेजी (b) पंजाबी
(c) हिंदी (d) हरियाणवी

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)

Ans. (a) : भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है क्योंकि नियोजित आधुनिक शहर का दर्जा चंडीगढ़ को प्राप्त हुआ यह राज्य पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से घिरा है।

विविध

188. तेलंगाना का राज्य पक्षी क्या है?

- (a) सोन चिरैया (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड)
(b) दूधराज (एशियन पैराडाइज फ्लाईकेचर)
(c) पलपिट्टा (भारतीय रोलर)
(d) पहाड़ी मैना

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-II

Ans. (c) : तेलंगाना, भारत के आन्ध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना भारत का 28वाँ राज्य है। तेलंगाना राज्य से संबंधित जानकारीयाँ निम्नलिखित हैं।

राज्य पक्षी – पालपिट्टा (भारतीय रोलर या ब्लू जे)

राज्य पशु – जिंका (हिरण)

राजकीय वृक्ष – जम्मी चेट्टू (प्रोसोपिस सिनरिया)

राज्य पुष्प – तांगेदु (टान्नर कैसिया)

189. निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम की मारा जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक और साथ ही धन्यवाद-ज्ञापन समारोह है?

- (a) ल्यूवा खुतला (b) मीम कुट
(c) पावल कुट (d) चापचर कुट

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-II

Ans. (a) : 'ल्यूवा खुतला' मिजोरम की मारा जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक और साथ ही धन्यवाद-ज्ञापन समारोह है। ज्ञातव्य है कि चापचर कुट महोत्सव मिजोरम के लोगों द्वारा 'झूम ऑपरेशन' अर्थात् 'जंगल को साफ करने' (जलने के अवशेषों को साफ करना) के बाद मनाया जाता है। यह एक बसंत का त्योहार है, जिसे यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है।

190. भारत में प्रवाल भित्तियाँ निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती हैं?

- (a) मुन्नार की खाड़ी (b) त्रिवेंद्रम
(c) उड़ीसा के तट (d) वाल्टेयर उच्चभूमि

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-I

Ans. (a) : भारत में प्रवाल भित्तियाँ मुन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में पाई जाती हैं। लक्षद्वीप, एटॉल प्रवाल द्वीप है जबकि बाकी सभी तटीय प्रवाल भित्ति हैं। इन भित्तियों का निर्माण सागरीय मूँगा के अवशेषों के संयोजन द्वारा होता है। मूँगे चूने पर निर्वाह करते हैं। भारत की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार है।

191. भूकंप-रोधी निर्माण धज्जी देवरी प्रणाली भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है?

- (a) आंध्र प्रदेश (b) जम्मू और कश्मीर
(c) त्रिपुरा (d) असम

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-II

Ans. (b) : भूकंप-रोधी निर्माण धज्जी देवरी प्रणाली भारत के जम्मू और कश्मीर पर पाई जाती है। धज्जी इमारतें आमतौर पर 1-4 मंजिल ऊँची होती हैं और छत एक सपाट लकड़ी और मिट्टी की छत या लकड़ी/धातु की चादर वाली पक्की छत हो सकती है। धज्जी इमारतों का उपयोग आमतौर पर बड़े आवासों के लिए किया जाता है।

192. निम्नलिखित में से कौन-सी संस्था भारत की समय संरक्षक (टाइम कीपर) है, अर्थात् यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है?

- (a) पीआरएल (फीजिकल रिसर्च लेबोरेटरी)
(b) इसरो (इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन)
(c) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी
(d) सीएसआईआर-एनपीएल (नेशनल फीजिकल लेबोरेटरी)

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (c) : दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला संस्था भारत की समय संरक्षक (टाइम कीपर) है, अर्थात् यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है। यह पाँच सीजियम परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल करके समय रिकॉर्ड करती है।

193. घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है?

- (a) कर्नाटक (b) गोवा
(c) पुडुचेरी (d) मध्य प्रदेश

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (d) : घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तामिया तहसील में स्थित है। जो घने जंगलों और पहाड़ों के सुंदर और मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है।

194. चुबीमुरा, जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैन्लों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है?

- (a) सिक्किम (b) त्रिपुरा
(c) असम (d) मेघालय

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (b) : चुबीमुरा, जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैन्लों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के त्रिपुरा राज्य में उपस्थित है। यह स्थान देवी चक्रम हेतु तिथ्यात पर्यटन स्थल भी है।

195. भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड) कहाँ स्थापित किया गया था?

- (a) फाल्ता, पश्चिम बंगाल (b) कांडला, गुजरात
(c) विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश (d) सांता क़्रूज, महाराष्ट्र

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)

Ans. (b) : भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड) कांडला, गुजरात किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में स्थापित किया गया था एशिया का पहला ईपीजेड स्थापित किया गया था।

भाग-4 : अर्थशास्त्र

आर्थिक नियोजन तथा पंचवर्षीय योजनाएँ

196. 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी?

- (a) 2012-2017 (b) 2007-2012
(c) 2002-2007 (d) 1997-2002

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (b) : ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि वर्ष 2007 से 2012 तक थी। इस पंचवर्षीय योजना की थीम “तीव्र और अधिक समावेशी विकास” थी।

197. हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या हैं, जिन्हें “चमत्कारी बीज” भी कहा जाता है?

- (a) होमो उपज किस्म (होमो बील्ड बैरायटी)
(b) संकर उपज किस्म (हाइब्रिड बील्ड बैरायटी)
(c) हेटेरो उपज भिन्नता (हेटेरो बील्ड वेरिएशन)
(d) उच्च उपज वाली किस्म (हाइ बील्ड बैरायटी)

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (d) : हरित क्रांति के संदर्भ में HYV से तात्पर्य हाई यील्ड वैरायटी अर्थात् “उच्च उपज वाली किस्म” से है। इसे चमत्कारी बीज भी कहा जाता है।

198. भारत की दुग्ध क्रांति के चरण I (1970-1980) को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल (बटर ऑयल) की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था?

- (a) यूरोपीय संघ (ईईसी)
(b) संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (एफएओ)
(c) खाद्य और कृषि संगठन (डब्ल्यूएचओ)
(d) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (a) : भारत की दुग्ध क्रांति के चरण I (1970-1980) को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से यूरोपीय संघ और फिर EEC द्वारा उपहार में दिये गये स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था। इसके लिए NDDB ने कार्यक्रम की योजना बनाई और EEC सहायता के विवरण पर बातचीत की।

199. भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को “गाडगिल योजना” के नाम से भी जाना जाता था?

- (a) दूसरी (b) पहली
(c) तीसरी (d) चौथी

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (c) : भारत की तीसरी पंचवर्षीय को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। इस पंचवर्षीय योजना ने अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ भारत के रक्षा क्षेत्र पर भी अपना मुख्य ध्यान केन्द्रित किया।

200. निम्नलिखित में से कौन “भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक” थे?

- (a) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (b) महात्मा गाँधी
(c) एम. विश्वेश्वरैया (d) डॉ. नॉर्मन बोरलॉग

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)

Ans. (c) : भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक सर एम. विश्वेश्वरैया हैं। इन्हें सर एम. वी. के नाम से भी जाना जाता है।

201. पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और ‘खाद्य, कार्य और उत्पादकता’ पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और वह बहुत सफल रहा?

- (a) पाँचवीं (b) प्रथम
(c) छठी (d) सातवीं

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)

Ans. (d) : भारत में सातवीं पंचवर्षीय योजना (Seventh Five Year Plan) का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ावा और “खाद्य, कार्य और उत्पादकता” पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना था। यह योजना सफल रही और अपने निर्धारित लक्ष्य 5% से अधिक 6% की वृद्धि दर प्राप्त की।

मुद्रा एवं बैंकिंग

202. जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, उसे _____ कहा जाता है।

- (a) रिवर्स रेपो दर (b) एसएलआर
(c) सीआरआर (d) रेपो दर

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-I

Ans. (d) : जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, उसे रेपो दर कहा जाता है। इसका उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। वर्तमान आरबीआई अध्यक्ष शक्तिकांत दास (25वें) हैं।

203. रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है?

- (a) MIBOR (b) LIBOR (c) FIBOR (d) SIBOR

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-II

Ans. (b) : भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य नियमित संस्थाओं को लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट (LIBOR) में परिवर्तन का निर्देश दिया है। LIBOR व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली वैश्विक बेंचमार्क ब्याज दर है। यह औसत ब्याज दर का प्रतिनिधित्व करता है, जिस पर बैंकों का अनुमान है कि वे विशिष्ट समय अवधि के लिए लंदन इंटरबैंक मार्केट में एक-दूसरे से उधार ले सकते हैं।

204. जब नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) आरबीआई द्वारा बढ़ाया जाता है, तो यह:

- (a) अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति बढ़ाएगा।
(b) अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा।
(c) शुरुआत में आपूर्ति बढ़ाएगा लेकिन बाद में स्वतः घटाएगा।
(d) अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-I

Ans. (b) : सीआरआर (CRR) एक महत्वपूर्ण नीति उपकरण है जिसका उपयोग आरबीआई (RBI) द्वारा तरलता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जब RBI, CRR को बढ़ाता है, तो बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम हो जाता है। इससे उधार लेने की लागत बढ़ जाती है जिसके परिणामस्वरूप कम पैसा प्रचलन में आता है। इससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है, लेकिन आर्थिक विकास की गति भी कम हो सकती है।

205. राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (NIBM) की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा, भारत सरकार के परामर्श से, बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी?

- (a) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL)
(b) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI)
(c) नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NBFID)
(d) एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (EXIM)

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (b) : राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (NIBM) की स्थापना 1969 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी।

206. बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था ?

- (a) देना बैंक (b) केनरा बैंक
(c) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (d) विजया बैंक

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (d) : बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण (1969) के दौरान जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनमें शामिल हैं- इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, देना बैंक तथा यूनियन बैंक।

207. 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के निर्माण को मंजूरी दी गई थी?

- (a) अधिनियम-62 (b) अधिनियम-61
(c) अधिनियम-63 (d) अधिनियम-64

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (b) : संसद द्वारा नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी 1981 के अधिनियम 61 के तहत दी गई थी। यद्यपि कि नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ।

208. नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के अनुपालन में, RBI ने नए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं

- (a) बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नए निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए।
(b) बैंकों को उनके मौजूदा शाखा नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाने के लिए दी गई स्वतंत्रता को कम करने के लिए।
(c) अधिक विदेशी मुद्रा विनिमय बैंकों को स्थापित करने के लिए।
(d) औद्योगिक विकास के लिए और अधिक आसानी से उधार देने के लिए।

UPSSSC Combined Technical Exam. 26-03-2023

Ans. (a) : नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के अनुपालन में आरबीआई ने बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नए निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश तैयार किए थे।

- नरसिम्हन समिति की स्थापना अगस्त 1991 में RBI के पूर्व गवर्नर एम. नरसिम्हन की अध्यक्षता में की गई थी, जिसने बैंकिंग क्षेत्र और पूंजी बाजार सहित वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के लिए व्यापक सिफारिशें की थी।

बजट एवं लोक वित्त/राजकोषीय नीतियाँ

209. निम्नलिखित में से कौन-सा 1991 में नई आर्थिक नीति (एनईपी) के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था?

- (a) औद्योगिक सुधार (b) कर सुधार
(c) भुगतान संतुलन का समायोजन (d) राजकोषीय सुधार

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (b) : 1991 में आर्थिक नीति (NEP) के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा थे-

1. ट्रेड एण्ड कैपिटल इनफ्लो रिफॉर्म।

2. इन्डस्ट्रियल रिफॉर्म।
3. टैक्स रिफॉर्म।
4. फिसकल रिफॉर्म।
5. मोनेटरी एण्ड फाइनेन्सियल रिफॉर्म।
6. प्राइवेटाइजेशन।

जबकि 'भुगतान संतुलन समायोजन' मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का हिस्सा था।

210. यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण (नेशनल एंटी प्रोफिटियरिंग ऑथोरिटी) की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर, 2022 से सभी जीएसटी मुनाफाखोरी-रोधी (एंटी प्रोफिटियरिंग) शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है?

- (a) आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक)
(b) भारत का आयकर विभाग
(c) सीसीआई (भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग)
(d) एनसीडीआरसी (राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग)

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (c) : यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाये, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण (NAA) ने निगरानी की और सुनिश्चित किया कि जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण व्यवसाय अनुचित मूल्य निर्धारण प्रथाओं और मुनाफाखोरी में शामिल न हो। सभी जीएसटी मुनाफाखोरी विरोधी शिकायतों को अब 1 दिसंबर, 2022 से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा निपटाया जाता है।

211. जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है?

- (a) इनपुट क्रेडिट कर (b) ऑनलाइन अनुपालन
(c) संरचना कर (d) गंतव्य-आधारित कर

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)

Ans. (d) : जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है जो निर्माता से उपभोक्ता तक आपूर्ति शृंखला के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है। इसे प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन पर लागू किया जाता है। जिससे क्रेडिट का निर्बाध प्रवाह होता है और अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ कम होता है।

212. भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था?

- (a) राजा चेलैया समिति (b) रेखी समिति
(c) केलकर टास्क फोर्स (d) नरसिम्हन समिति

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (c) : भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सर्वप्रथम केलकर टास्क फोर्स द्वारा वर्ष 2000 में प्रस्तावित किया गया था।

इसका उद्देश्य मौजूदा जटिल और खंडित कर ढांचे को एकीकृत कर प्रणाली से बदलना था जो अनुपालन को सरल बनाएँ, कैस्केडिंग को कम करे तथा आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देगा।

जनसंख्या एवं नगरीकरण

213. भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है?

- (a) 75 व्यक्ति प्रति किमी.² (b) 83 व्यक्ति प्रति किमी.²
(c) 70 व्यक्ति प्रति किमी.² (d) 45 व्यक्ति प्रति किमी.²

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (b) : थार रेगिस्तान दुनिया का सबसे व्यापक रूप से घनी आबादी वाला रेगिस्तान है, जिसका जनसंख्या घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है।

गरीबी, बेरोजगारी एवं सरकारी योजनाएँ

214. निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है, जिसका उद्देश्य “काम करने का अधिकार” (राइट टू वर्क) की गारंटी देना है?
- भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम
 - महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
 - वेतन भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2017
 - नागरिकता अधिनियम

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-I)

Ans. (b) : संविधान का अनुच्छेद-41 “काम करने का अधिकार” (Right to Work) का प्रावधान करता है। जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 व्यवहार में लाने का प्रयास करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

215. निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्रीय सम्भाषण भागीदार (पार्टनर) बना?
- 2012
 - 1996
 - 1992
 - 1995

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (d) : भारत ने 1992 में एक “क्षेत्रीय वार्ता साझेदार (Sectoral Dialogue Partner)” (सचिव स्तर की बातचीत) के रूप में और उसके बाद 1995 में एक वार्ता साझेदार (Dialogue Partner) के रूप में आसियान का औपचारिक भागीदार बना।

216. पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था?
- बगदाद
 - दुबई
 - कतार
 - तेहरान

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)

Ans. (a) : पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) एक स्थायी, अन्तर-सरकारी संगठन है, जिसे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा 10-14 सितम्बर, 1960 को बगदाद सम्मेलन में बनाया गया था।

217. निम्नलिखित में से किस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है?
- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन)
 - अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन)
 - अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन)
 - खाद्य और कृषि संगठन (फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन)

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (b) : अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन) का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। इस संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी।

विवरण एवं सूचकांक

218. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा कि 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति _____ है।
- ₹ 2.72 लाख
 - ₹ 10.72 लाख
 - ₹ 6.72 लाख
 - ₹ 1.72 लाख

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-I

Ans. (d) : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति आय ₹1.72 लाख है।

राष्ट्रीय संगठन एवं प्रमुख मंत्रालय

219. भारत के राज्य में, राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए सहायता दी है?
- कुटीर उद्योग
 - मध्यम और लघु उद्योग
 - कृषि फार्म
 - बड़े पैमाने के उद्योग

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-I

Ans. (b) : भारत के राज्य में, राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से मध्यम और लघु उद्योगों के विकास के लिए सहायता देता है। राज्य वित्तीय निगम की स्थापना, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के तहत की गई है।

220. बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
- मुंबई
 - नई दिल्ली
 - चेन्नई
 - हैदराबाद

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-I)

Ans. (d) : बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) का मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में है, जहाँ यह वर्ष 2001 में दिल्ली से स्थानांतरित हुआ था।

221. निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है?
- नाबार्ड
 - ऋण संघ (लोन एसोसिएशन)
 - वाणिज्यिक बैंक (कमर्शियल बैंक्स)
 - क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-I)

Ans. (a) : नाबार्ड एक डिपॉजिटरी संस्थान का प्रकार नहीं है। यह 12 जुलाई, 1982 को RBI के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त कार्यों को स्थानांतरित करके अस्तित्व में आया था।

222. “आईआईएचआर (IIHR) – भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान” बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर बुनियादी, रणनीतिक, प्रत्याशित और व्यावहारिक अनुसंधान के लिए एक केंद्रक अभिकरण (नोडल एजेंसी) है। इस संगठन का मुख्य अनुसंधान स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?
- उत्तराखंड
 - तेलंगाना
 - कर्नाटक
 - हिमाचल प्रदेश

UPSSSC Junior Assistant Exam. 27-8-2023

Ans. (c) : भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (IIHR) एक स्वायत्त संगठन है जो भारत में बागवानी के विभिन्न पहलुओं जैसे-फल, सब्जी, औषधि आदि पर बुनियादी एवं व्यावहारिक अनुसंधान के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु (कर्नाटक) में है। यह कृषि मंत्रालय के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अन्तर्गत आता है।

विविध

223. सरकार ने पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु..... से तक बढ़ा दी है।
- 60 से 65 साल
 - 65 से 75 साल
 - 65 से 70 साल
 - 55 से 60 साल

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-II

Ans. (c) : पीएफआरडीए ने लोकपाल की आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी है। PFRDA राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने हेतु संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक प्राधिकरण है, जो वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के अधीन कार्य करता है।

224. एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय..... के लिए निवेश बैंकर के रूप में कार्य करता है।

- (a) वाणिज्यिक बैंकों (b) सरकार
(c) जनता (d) आरबीआई

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-II

Ans. (b) : सार्वजनिक ऋण कार्यालय या ऋण प्रबंधन कार्यालय एक स्वायत्त सरकारी एजेंसी है जो सरकार के लिये निवेश बैंकर के रूप में कार्य करती है। सार्वजनिक ऋण की मुख्य स्रोतों की सूची सरकारी प्रतिभूतियाँ, राजकोष बिल या T-बिल, बाहरी सहायता, अल्पकालिक ऋण, केन्द्र सरकार द्वारा सार्वजनिक ऋण है।

225. सिल्वीकल्चर से आप क्या समझते हैं?

- (a) यह रेशम के कीड़ों को उगाने का विज्ञान है।
(b) यह वन खेती का विज्ञान है।
(c) यह मछली पकड़ने का विज्ञान है।
(d) यह भेड़ पालने का विज्ञान है।

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-II

Ans. (b) : सिल्वीकल्चर (Silviculture) वनों एवं वन्य संसाधनों के विकास तथा गुणवत्तावर्धन का विज्ञान है। अर्थात् यह वन खेती का विज्ञान है।

अन्य :- सेरीकल्चर- रेशम के कीड़े को उगाने का विज्ञान

पिसीकल्चर - मत्स्यपालन

मोरीकल्चर - रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना

विटीकल्चर - अंगूर की खेती

ओलेरी कल्चर - सब्जी विज्ञान

226. एस एचजी-बीएलपी (स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम) के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड पायलट परियोजना को कहा जाता है :

- (a) ई-शांति (b) ई-संरक्षा
(c) ई-शक्ति (d) ई-समृद्धि

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-II

Ans. (c) : ई-शक्ति स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के डिजिटलीकरण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की एक पायलट परियोजना है। इसकी शुरुआत एसएचजी की बही-खाता की गुणवत्ता के सुधार और बैंकों को प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से समूह के बारे में सूचित ऋण निर्णय लेने में सक्षम बनाने जैसी कुछ चिंताओं को दूर करने के लिए की गई थी।

227. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के किस अध्याय (चैप्टर) में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं?

- (a) अध्याय II (b) अध्याय I
(c) अध्याय III (d) अध्याय IV

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)

Ans. (a) : समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अध्याय-2 (Chapter-II) में पुरुष और महिला को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं।

228. अपने पहले चरण के दौरान, ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्धशेडों को भारत के चार प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन-सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था?

- (a) कोलकाता (b) बेंगलुरु
(c) मुंबई (d) चेन्नई

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)

Ans. (b) : अपने पहले चरण के दौरान, ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के चार प्रमुख नगरीय शहरों यथा- दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा।

229. “स्वर्ण क्रांति” भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है?

- (a) बागवानी (b) आलू उत्पादन
(c) पेट्रोलियम उत्पादन (d) तिलहन उत्पादन

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-I)

Ans. (a) : वर्ष 1991 से 2003 के बीच की अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति (Golden Revolution) की अवधि के रूप में जाना जाता है। स्वर्ण क्रांति शहद और बागवानी (Honey and Horticulture) से संबंधित है।

230. गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) को कौन मंजूरी देता है?

- (a) विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय
(b) राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर
(c) आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति
(d) कृषि लागत और मूल्य आयोग

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-I)

Ans.(c) : गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) को मंजूरी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा प्रदान की जाती है।

भाग-5 : सामान्य विज्ञान

भौतिक विज्ञान

मात्रक/मापन/मापक यंत्र

231. ज्योति तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसका नाम है :

- (a) कैंडेला (b) न्यूटन
(c) एंगस्ट्रॉम (d) टेस्ला

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-I

Ans. (a) : ज्योति तीव्रता को कैंडेला इकाई में व्यक्त किया जाता है। किसी एक निश्चित दिशा में प्रकाश स्रोत के एकांक घन कोण में निकलने वाली ज्योति फ्लक्स की मात्रा को उस प्रकाश स्रोत की, उस दिशा में ज्योति तीव्रता कहते हैं।

232. स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है?

- (a) रक्तचाप
(b) स्वर-रज्जु
(c) रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता
(d) कंकाल की मांसपेशी द्वारा विद्युत गतिविधि

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (a) : स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग रक्तचाप मापने में किया जाता है।

233. निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है?

- (a) मैनोमीटर (b) पीज़ोमीटर
(c) बैरोमीटर (d) गेज ऐडैप्टर

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)

Ans. (b) : पीज़ोमीटर का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है।

पदार्थ के गुण/आर्किमिडीज का सिद्धान्त

234. लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धान्त/नियम पर कार्य करता है?

- (a) पास्कल का सिद्धान्त (b) न्यूटन का श्यानता का नियम
(c) बरनौली का सिद्धान्त (d) आर्किमिडीज का सिद्धान्त

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-II)

Ans. (d) : लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धान्त पर कार्य करता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। यह पानी के संबंध में दूध का सापेक्षिक घनत्व निर्धारित करता है। यह शुद्ध दूध में तैरता है जबकि दूध अशुद्ध होने पर डूब जाता है।

तरंग/ध्वनि

235. स्वरयंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) इसमें स्वर रज्जु होते हैं।
(b) यह एक हड्डीदार बक्सा है।
(c) यह श्वासनली में आक्रमण करने वाले रोगजनों को रोकता है।
(d) यह उपास्थि से बना एक अंग है और ग्रसनी को स्वासनली से जोड़ता है।

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-I)

Ans. (*) : स्वरयंत्र श्वसन तंत्र का एक कार्टिलेजिनस खंड है जो गर्दन के अग्रभाग में स्थित होता है। स्वरयंत्र का प्राथमिक कार्य साँस लेते समय निचले श्वसन पथ को श्वासनली में भोजन के प्रवेश से बचाता है। इसमें स्वर रज्जु भी शामिल है। यह एक कार्टिलेजिनस कंकाल है।

प्रकाश

236. निकट दृष्टिदोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है?

- (a) अवतल लेंस (b) समतलावतल लेंस
(c) उत्तल लेंस (d) समतलोत्तल लेंस

UPSSSC VDO Re-Exam. 27-06-2023 Shift-I

Ans. (a) : निकट दृष्टिदोष (मायोपिया) आँखों से सम्बंधित बीमारी है। इसमें दूर की वस्तुएँ स्पष्ट देखने में परेशानी होती है। इस परेशानी में आँख की पुतली का आकार बढ़ जाता है। क्योंकि दूर रखी वस्तु का प्रतिबिम्ब दृष्टि पटल (रेटिना) पर न बनकर दृष्टि पटल के सामने बनता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं।

237. निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है?

- (a) निकटदृष्टि (b) दृष्टि का स्थायित्व
(c) जरादूरदृष्टि (d) दूरदृष्टि

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-II

Ans. (b) : दृष्टि का स्थायित्व दृष्टि दोष नहीं है, जबकि अन्य विकल्प दृष्टि दोष से संबंधित बीमारी हैं।

• **निकट दृष्टि दोष**—इसे मायोपिया भी कहते हैं। इस रोग में प्रकाश रेटिना पर केंद्रित होने के बजाए, उसके सामने केंद्रित होता है। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखायी देती है।

- **जरादूरदृष्टि**—आँखों का ऐसा दोष है जिसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों दोष होता है। इसमें मनुष्य दूर की वस्तु तथा नजदीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है।
- **दूर दृष्टि दोष**—इसमें दूर की वस्तुएँ स्पष्ट दिखती हैं परंतु निकट रखी वस्तुएँ सुस्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं।

238. तारों के चमकने का कारण क्या है?

- (a) धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन
(b) बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन
(c) तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन
(d) पानी की बूँदी द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (c) : तारों के चमकने का कारण तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन है। वायुमंडलीय अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश किरणें या अन्य विद्युत चुम्बकीय तरंगें वायुमण्डल से प्रवाहित होती हैं और वायु घनत्व तथा ऊँचाई से भिन्नता के कारण विचलित हो जाती हैं।

विद्युत

239. किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है?

- (a) चालक का पदार्थ (मैटिरियल)
(b) लंबाई
(c) इसके क्रॉस-सेक्शन (अनुप्रस्थ-काट) के क्षेत्रफल के विपरीत
(d) चालक की आर्द्रता

UPSSSC PET 28-10-2023 (Shift-II)

Ans. (d) : किसी चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ, लंबाई इसके क्रॉस-सेक्शन (अनुप्रस्थ काट) के क्षेत्रफल से प्रभावित होता है। यह चालक की आर्द्रता पर निर्भर करता है।

रसायन विज्ञान

ऑक्सीकरण और अपचयन

240. लाफिंग गैस क्या है?

- (a) नाइट्रोजन सल्फाइड (b) नाइट्रोजन पेरॉक्साइड
(c) नाइट्रस ऑक्साइड (d) नाइट्रोजन डाइऑक्साइड

UPSSSC VDO Re-Exam. 26-06-2023 Shift-I

Ans. (c) : नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र N_2O होता है। आमतौर पर इस गैस का उपयोग एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है।

241. _____ एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है।

- (a) एनोडाइजिंग (b) गैल्वेनीकरण
(c) कैथोडाइजिंग (d) कास्टिंग

UPSSSC PET 29-10-2023 (Shift-I)

Ans. (a) : एनोडाइजिंग, एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। जो एल्युमिनियम भागों की सतह पर घिसाव और संक्षारण प्रतिरोधी एल्युमिनियम ऑक्साइड कोटिंग का उत्पादन करती है। इसमें सामग्री पर ऑक्साइड परत बनाने के लिए एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है।

अम्ल, क्षार एवं लवण

242. निम्नलिखित में से किसका जलीय घोल आँखों के लिए कमजोर पूर्तिरोधी (एंटीसेप्टिक) के रूप में प्रयोग किया जाता है?